

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2024—भाद्र 1, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. ई-1-155-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों की उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मोहम्मद सुलेमान (1989) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग.	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.	—

3949

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री एस. एन. मिश्रा (1990) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
3.	श्री के. सी. गुप्ता (1992) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल
4.	श्री संजय दुबे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.	—
5.	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
6.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	—
7.	श्री डी. पी. आहूजा (1996) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार).	—
9.	श्री संदीप यादव (2000) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
10.	डॉ. सुदाम पंडरीनाथ खाड़े (2006) आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).	—

2. उपरोक्तानुसार श्री संजय दुबे (1993) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, (1998) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, (1998) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. उपरोक्तानुसार श्री डी पी आहूजा (1996) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य, महासंघ, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, (2001) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री अशोक बर्णवाल (1991) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5. श्री संजय कुमार शुक्ल (1994) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

6. श्री सुखवीर सिंह (1997) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्र. ई-5-723-आयएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च 2024 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, (1997) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का दिनांक 2 से 19 अप्रैल 2024 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 23 अप्रैल 2024 तक कुल इक्कीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। आदेश की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्र. 2124-एफ-1-49-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 20 से 30 अगस्त 2024 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-19 अगस्त के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 31 अगस्त व 1 सितम्बर 2024 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यू जर्सी (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री शैलेश सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं

27-28 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री शैलेश सिंह, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती सुनीता सिंह, | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-1-1- 0200-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्, श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस, इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 1 जुलाई 2024 तक छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत त्रिवेन्द्रम (केरल) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती इंदिरा पाण्डेय | — | पत्नी |
| 3. श्री प्रांजल पाण्डेय | — | पुत्र |
| 4. श्री प्रभव पाण्डेय | — | पुत्र |

(2) श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे के अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस, इन्दौर का चालू कार्य श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-2, नगरीय पुलिस, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-3, नगरीय पुलिस, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 62-2001-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला इन्दौर को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15, 16, 17 व 20, 21 मई 2024 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 18-19 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत जम्मू-कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री राकेश गुप्ता — स्वयं
2. श्रीमती रीतू गुप्ता — पत्नी
3. कु. रीतिका गुप्ता — पुत्री
4. श्री ध्रुव गुप्ता — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 70-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे, सेनानी, 34वीं वाहिनी, विसबल, धार को दिनांक 5 से 21 अप्रैल 2024 तक सत्रह दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौतीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल), पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 13 सितम्बर 2024 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 अगस्त व 01, 14, 15, 16 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा के स्थान पर उत्तर-पूर्व की यात्रा अंतर्गत त्रुब्रा वैली (जम्मू-कश्मीर / लद्दाख) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री मनीष शंकर शर्मा — स्वयं
2. श्रीमती आरती शर्मा — पत्नी
3. श्री तेजस्वी शंकर शर्मा — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैनुअल), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 184-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे, तत्कालीन विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 के पूर्ववर्ती अवकाश व 27-28 जुलाई 2024 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भट्टाची, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

फा. क्र. 2399-इक्कीस-ब (दो)-2024.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) श्री पंकज गौड़, सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 25 जुलाई से 29 सितम्बर 2024 तक संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय “मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428)-महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

फा. क्र. 2392-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा जारी किये गये समसंख्यक आदेश क्रमांक 2092-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 31 जुलाई 2024 में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली के लिये नियुक्त विधि पदाधिकारियों में निम्नानुसार तालिका के कॉलम 5 अनुसार संशोधन करता है :—

क्र.	आदेश दिनांक 31-7-2024 में अंकित नाम / अधिवक्ता का एन्रोलमेंट क्र.	पदनाम एवं कार्यालय	पूर्व आदेश में अधिवक्ता का सरल क्र.	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shri Abhijeet Awasthy Enroll. No. MP/728/2007	Dy. Adv. Gen. in Jabalpur	05	Shri Abhijeet Awasthi Enroll. No. MP/728/2007
2.	Shri Naval Kishore Gupta Enrol. No. 2445/2000	Govt. Adv. in Gwalior	01	Shri Naval Kishore Gupta Enrol. No. 3445/2006
3.	Shri Saket Udeniya Enrol. No. MP/2775/2005	Govt. Adv. in Gwalior	26	Shri Saket Udeniya Enrol. No. MP/2775/2003

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. एफ-23-8-2011-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, सूचित करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उस सीमा तक जैसा कि उल्लेखित किया गया है, सम्यक रूप से लागू होंगे. साथ ही अधिनियम की धारा 3(उ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन क्षेत्रों में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु अनुसूची में इन क्षेत्रों के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 35 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

क्षेत्र (1)	क्षेत्र की सीमाएं (2)	सक्षम प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
झाबुआ	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित झाबुआ निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ	अपर कलेक्टर, झाबुआ.
पन्ना	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित पन्ना निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पन्ना	अपर कलेक्टर, पन्ना.
गुना	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित गुना निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना	अपर कलेक्टर, गुना.
शाजापुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शाजापुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर	अपर कलेक्टर, शाजापुर.
नीमच	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नीमच निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच	अपर कलेक्टर, नीमच.
निवाड़ी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित निवाड़ी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी	अपर कलेक्टर, निवाड़ी.
अशोकनगर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अशोकनगर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अशोकनगर	अपर कलेक्टर, अशोकनगर.
दमोह	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित दमोह निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह	अपर कलेक्टर, दमोह.
टीकमगढ़	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित टीकमगढ़ निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़	अपर कलेक्टर, टीकमगढ़.
हरदा	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित हरदा निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा	अपर कलेक्टर, हरदा.
छिन्दवाड़ा	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा	अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.
मन्दसौर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मन्दसौर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर	अपर कलेक्टर, मन्दसौर.
सीहोर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सीहोर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीहोर	अपर कलेक्टर, सीहोर.

(1)	(2)	(3)	(4)
मण्डला	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मण्डला निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डला	अपर कलेक्टर, मण्डला.
बैतूल	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बैतूल निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल	अपर कलेक्टर, बैतूल.
शिवपुरी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शिवपुरी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शिवपुरी	अपर कलेक्टर, शिवपुरी.
दतिया	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित दतिया निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया	अपर कलेक्टर, दतिया.
बालाघाट	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बालाघाट निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालाघाट	अपर कलेक्टर, बालाघाट.
बड़वानी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बड़वानी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वानी	अपर कलेक्टर, बड़वानी.
मुरैना	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मुरैना निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना	अपर कलेक्टर, मुरैना.
नरसिंहपुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर	अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर.
छतरपुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित छतरपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छतरपुर	अपर कलेक्टर, छतरपुर.
सिवनी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सिवनी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी	अपर कलेक्टर, सिवनी.
खरगौन	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित खरगौन निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगौन	अपर कलेक्टर, खरगौन.
अलीराजपुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अलीराजपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर	अपर कलेक्टर, अलीराजपुर.
आगर मालवा	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित आगर मालवा निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आगर मालवा	अपर कलेक्टर, आगर मालवा.

(1)	(2)	(3)	(4)
श्योपुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित श्योपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर	अपर कलेक्टर, श्योपुर
डिंडौरी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित डिंडौरी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिंडौरी	अपर कलेक्टर, डिंडौरी.
सीधी	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सीधी निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीधी	अपर कलेक्टर, सीधी.
शहडोल	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शहडोल निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शहडोल	अपर कलेक्टर, शहडोल.
रायसेन	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित रायसेन निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन	अपर कलेक्टर, रायसेन.
राजगढ़	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित राजगढ़ निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़	अपर कलेक्टर, राजगढ़
विदिशा	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित विदिशा निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा	अपर कलेक्टर, विदिशा.
नर्मदापुरम	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नर्मदापुरम निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नर्मदापुरम	अपर कलेक्टर, नर्मदापुरम.
धार	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित धार निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार	अपर कलेक्टर, धार.
भिण्ड	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित भिण्ड निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिण्ड	अपर कलेक्टर, भिण्ड.
मैहर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मैहर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर	अपर कलेक्टर, मैहर.
पांडुर्ना	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित पांडुर्ना निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्ना	अपर कलेक्टर, पांडुर्ना.
मउगंज	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मउगंज निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मउगंज	अपर कलेक्टर, मउगंज.

(1)	(2)	(3)	(4)
अनूपपुर	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अनूपपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर	अपर कलेक्टर, अनूपपुर.
उमरिया	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित उमरिया निवेश क्षेत्र सीमा तक.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उमरिया	अपर कलेक्टर, उमरिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. 1750-2231255-पचास-2-24.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम, के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बैतूल	बैतूल	श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी, JMFC

No. 1750-2231255-L-2-24.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Betul	Betul	Smt. Anna Glory Maheshwari, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. एफ-1-4-23-रा.स.-यू. ए. 1-987.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा डॉ. मनदीप शर्मा, पूर्व डीन, (पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, सी. एस. के. एच. पी. के. वी.), पालमपुर-176062, (हि. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 एवं परिनियम के भाग-चार की कंडिका 15 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

राजभवन, दिनांक 12 अगस्त 2024

क्र. एफ-1-2-24-रा.स.-यू. ए. 1-992.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 3 सन् 2009) की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा प्रो. स्मिता सहस्रबुद्धे, प्राध्यापक संगीत, शा. कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

यह आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2024 से प्रभावशील होगा.

मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए]

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 3509-वि.यो.-टी.डी.आर. (प्राप्ति क्षेत्र)-22-नग्रांनि-2024.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, जबलपुर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची
(प्राप्ति क्षेत्र)

सरल क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इन्दौर विकास योजना, 2021 का निवेश क्षेत्र.	विकास योजना, 2021 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.	मार्ग की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

जबलपुर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3507-वि. यो.-जबलपुर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

- 1 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश
- 2 कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
- 3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर, मध्यप्रदेश
- 4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

जबलपुर विकास योजना, 2021 के अध्याय-4 की कंडिका 4.2 (क्षेत्राधिकार) के बिन्दु क्रमांक 14 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

15. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे, उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे.
16. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.सह-आयुक्त-सह संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 24 जुलाई 2024

संशोधित आदेश 02

क्र. 73-2024-न्या. लि.-10424.—माह जुलाई 2024 तथा माह अगस्त 2024 में आने वाले श्रावण सोमवार दिनांक 22 जुलाई से 2 सितम्बर 2024 तक महाराष्ट्रीयन श्रावण को सम्मिलित करते हुए आ रहे हैं। श्रावण माह में खण्डवा जिले में कावडा यात्रा निकाली जाने की परम्परा प्रचलित है। श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगणों का औंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दशनार्थ हेतु आगमन होता है। खण्डवा जिले का खण्डवा-इन्दौर अत्यन्त व्यस्त सड़क मार्ग है। जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं, सन्तुष्ट हूँ कि खण्डवा-इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

अतएव इन्दौर-इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :—

- (1) श्रावण सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2024 से दिनांक 2 सितम्बर 2024 (महाराष्ट्रीयन श्रावण) की अवधि प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इन्दौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे।
- (2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए. बी. रोड तक पहुंचेंगे।
- (3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे।
- (4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :—
 - (4.1) दुग्ध वाहन
 - (4.2) नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
 - (4.3) पुलिस वाहन
 - (4.3) फायर बिग्रेड
 - (4.4) पानी टैंकर
 - (4.5) आर्मी के वाहन
 - (4.6) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
 - (4.7) एल.पी.जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
 - (4.8) कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
 - (4.9) यात्री बसें

यह आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 से दिनांक 2 सितम्बर 2024 तक प्रभावशील होगा।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2024

क्र. 4237-स.अ.(का.)-2024.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 179-स.अ.(का.)-2024 जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं आदेश क्रमांक 1983-स.अ.(का.)-2024, जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक कुमार सक्सेना, भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2024 में जिला जबलपुर के लिए निम्नलिखित तिथि को पूरे दिवस के लिए तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश की तारीख	दिन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विश्वकर्मा जयंती/अनंत चतुर्दशी	17 सितम्बर 2024	मंगलवार	संपूर्ण जिला

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उप-कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.

जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्र. 4703-एस. डब्ल्यू.-2024.—पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-पुमु-अमनि-पीटीआरआई-सेल-698-16, दिनांक 4 मार्च 2016 के द्वारा पुलिस इकाई में यातायात प्रबंधन योजना, मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित यातायात थाना के अतिरिक्त 02 नवीन यातायात थाने स्वीकृत किए गए, जिनमें संचालित यातायात थाना का बल विभाजित कर नवीन थानों में दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए. जिसके पालन में बल विभाजित कर तीनों यातायात थाने संचालित किए जा रहे हैं साथ ही उक्त तीनों यातायात थानों की सीमाओं का निर्धारण आदेश क्रमांक पुअ-जबल-अपुअ-याता-34-2019, दिनांक 7 जनवरी 2019 के द्वारा किया गया है. अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1) के खण्ड-प में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, निम्नानुसार सूची में दर्शाए यातायात थानों की सीमा क्षेत्र का निर्धारण करता हूँ :—

सूची

क्र.	यातायात थाने का नाम	सीमा क्षेत्र	थाना संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	थाना यातायात (मध्य) मालवीय चौक, जबलपुर.	थाना लार्डगंज, थाना कोतवाली, थाना मदनमहल, थाना ओमती, थाना गोहलपुर, थाना विजयनगर, थाना माढोताल, थाना मझौली, थाना पाटन, थाना मझगवां, थाना कटंगी (उक्त समस्त थानों का क्षेत्र).	11
2.	थाना यातायात (उत्तर) घमापुर, जबलपुर.	थाना घमापुर, थाना सिविल लाईन, थाना रांझी, थाना खमरिया, थाना आधारताल, थाना हनुमानताल, थाना बेलबाग, थाना पनागर, थाना कुण्डम, थाना सिहोरा, थाना खितौला, थाना गोसलपुर (उक्त समस्त थानों का क्षेत्र).	12
3.	थाना यातायात (दक्षिण) गढा, जबलपुर.	थाना गढा, थाना गोरखपुर, थाना ग्वारीघाट, थाना तिलवारा, थाना संजीवनीनगर, थाना केण्ट, थाना गोरबाजार, थाना बरेला, थाना बरगी, थाना भेडाघाट, थाना चरगवां, थाना शहपुरा, थाना बेलखेडा (उक्त समस्त थानों का क्षेत्र).	13

दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 अगस्त 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1780-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	अमिलिया	6.3713	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की अमिलिया माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1782-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रेहुटा	1.5000	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की मसनहा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1785-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	नैना	9.5225	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की बैरगला माइनर एवं नैना सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1786-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	इटमा	8.0425	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी माइनर एवं बांधी सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1787-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रेवरा	2.8450	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर एवं रेवरा सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1788-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बम्हौरी	2.1100	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत जैतवारा वितरिका की मझगवां सुर्की माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1789-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मझगवां सुर्की	1.5163	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत जैतवारा वितरिका की मझगवां सुर्की माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1790-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मेदनीपुर	4.4538	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की मेदनीपुर माइनर एवं तुरी वितरिका की मटीमा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1792-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	कोरिगवां	4.5876	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1793-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बराकला	2.4038	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की बराकला माइनर एवं बर्रेह माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1795-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	गौरा	4.0838	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं तुरी वितरिका की गौरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1796-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	चिरहुली 142	0.0938	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की उगरा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1797-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	हटिया	12.9200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा उपवितरिका हटिया माइनर 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1798-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	धनखेर खुर्द	3.8200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की धनखेर खुर्द माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1799-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	रायपुर	5.7788	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की रायपुर माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1800-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रामपुर चौरासी	6.8025	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की तुरी वितरिका मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1801-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	शाहा	5.7238	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1, नागौद, जिला सतना (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की तुरी वितरिका एवं शाहा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1791-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पगारकला	8000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म.प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1781-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	उमरी	2.8000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म.प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 7 अगस्त 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1802-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हरदुआ मझोल	0.060	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना, जिला सतना (म.प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1805-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कुम्हारौला	1.3000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना यूनिट-2, मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1806-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बम्हौरी	4.3500	कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलौद, जिला शहडोल (म.प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 1807-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बगहा	0.049	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (म.प्र.)	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 11 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 91-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया मथुरियान	1.4418	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर एवं मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 92-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	सरवकां	2.665	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मैहर, दिनांक 6 अगस्त 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 100-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया हनुमान	0.4600	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 101-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया देवार्थ	0.3050	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 102-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया जगन्नाथ	0.5413	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 103-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया केसई	3.600	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया केसई माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 104-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	परसवाही	1.753	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 105-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया लालन	4.2119	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र. 106-भू-अर्जन-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैहर	अमरपाटन	मौहरिया रामगोपाल	1.2650	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 जून 2024

पत्र क्र. 8-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा-दमोह-1355.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	कौरता	3.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह	पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा-दमोह-1352.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पारना	6.725	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह	पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 09-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा-दमोह-1354.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	डेलनखेड़ा	1.572	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह	पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 06-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा-दमोह-1356.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	पिपरिया सिंगौरगढ़	1.741	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह	पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-तेन्दूखेड़ा-दमोह-1895.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	वंशीपुर	3.881	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह	पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 1 अगस्त 2024

पत्र क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2024-25-तेन्दूखेड़ा-2619.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेन्दूखेड़ा	खर्राघाट	0.185	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह	खर्राघाट रेस्ट हाउस में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत्.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. 4715-भू-अर्जन-2024.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-22(ए)101-एमपीएस-31-1361, भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-सीताझिर प.ह.नं.-08 ब.नं.-292, रा.नि.मं.-कपुर्दा	रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पंच व्यपवर्तन परियोजना के माण्डवा होज इरिगेशन सिस्टम के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 01-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	ढनगन	0.609	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म.प्र.).	मऊगंज जिले के देवतालाब तमरी से ढनगन हटवा सोरैहान मार्ग में ओड़डा नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	भट्ठा टोला	0.226	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म.प्र.).	मऊगंज जिले के देवतालाब तमरी से ढनगन हटवा सौरहान मार्ग में ओड़्डा नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

क्रमांक-0012अ-82-23-24-भू-अर्जन-2024-5146

सागर, दिनांक 02 जुलाई 2023

मौजा नरवाना पट.ह.न.-86 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	गुड़ा निधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्र.-32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 2- राजस्व निरीक्षक, परसोरिया 3- सरपंच ग्राम पंचायत, गुड़ा वि.ख.सागर 4- सचिव ग्राम पंचायत गुड़ा वि.ख.सागर
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	नरवाना
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	1.160 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	1.160 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	गुड़ा निधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्र.-32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	1.160 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-0001-अ 82-2023-2-रावा-6689

बैतूल, दिनांक 29 जुलाई 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	रावा	0.635	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड का निर्माण

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी कृषक का नाम / पिता का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित होने वाला रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	गुलाबराव, बकाराव व. दादू, कला, कमरजा पिता दादू, चिन्धी बेवा दादू सा. गौला	643/2	0.890	0.071
		643/6	0.470	0.090
		636/3	0.405	0.104
2	गुलाबराव, देवराव व. लाहनू सा. गौला	643/3	1.291	0.071
3	सुनीता पत्नी संतोष सा. देह	635/2	0.809	0.051
4	गोपिका बेवा भीलू, श्यामराव, रामू, राजू, अजाबराव व. भीलू सा. देह	635/3	1.214	0.090
5	पारबती, नासिका, जमना, शोभा पिता मिडू, कमला, अम्बू पिता जागो, चन्द्रभागा बेवा मिडू सा. देह	593	0.101	0.010
		594	0.045	0.025
6	रामू व. भीलू कुन्बी सा. देह	635/4	0.809	0.123
	योग :-	9	6.034	0.635

(2) चूँकि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड के निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक-09-अ-82-2022-23-गौला-6741

बैतूल, दिनांक 30 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	गौला	0.210	पारसडोह मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	बाबूराव, वासुदेव व. आनंदराव, शान्ता बेवा आनंदराव कुन्बी सा. देह	292	0.607	0.100
2	बाबूराव व. उमराव कुन्बी सा. देह	387/1	0.303	0.080
3	शंकर व. नारायण, बुन्दरू, बूंदरो पुत्री नारायण कुन्बी सा. देह	468/2	0.171	0.020
4	संतोषराव, बाबाराव, देवीदास, प्रकाश, भाउराव व. दौलतराव, अनीता पुत्री दौलतराव, कंचना, लता पुत्री मानिकराव, अलकेश, निलेश, व. नामदेव, दुर्गादास, धमेन्द्र व. मानिकराव, लक्ष्मी बेवा मानिकराव कुन्बी सा. देह	581/8	2.206	0.010
	योग	6	4.147	0.210

(2) चूंकि पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारूप V
(नियम 10 देखे)

क्रमांक-894-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-

नरसिंहपुर, दिनांक 05 अगस्त 2024

रा.मा.क्र. 0015./अ-82/2024-25 ग्राम-रोहणी प.ह.नं.-03 नं.ब.-517 तहसील-नरसिंहपुर

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-रोहणी प.ह.नं.-03 नं.ब.-517 तहसील-नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 7.921 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 7.921 हेक्टेयर है ग्राम रोहणी तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-रोहणी, तहसील-नरसिंहपुर, प.ह.नं.-03

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
1	प्रीतम वारेलाल पिता अमरसिंह मलाह सा. घाटपिपरिया	भूमिस्वामी	15/3 17/3	0.073 0.373
2	रामकली पत्नि आशाराम कुमेर भारत सुदामा महेश करन शिवकुमार सिया लक्ष्मी अनीता छोटीवाई पिता आशाराम नीमा पत्नि ताराचंद्र राजेश संगीता पिता ताराचंद	भूमिस्वामी	17/5	0.096
3	सुक्के आ. बाबूलाल मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	17/4	0.122
4	टीकाराम प्रहलाद भीकम शकुन मुन्नी विमला माया पिता गनेश कलाबाई पत्नि धनपाल गुलशन मनोज वसंती सुनीता पिता धनपाल मलाह	भूमिस्वामी	15/2 17/2	0.154
5	मुन्नीबाई आ. कोदूलाल मलाह सा. घाटपिपरिया	भूमिस्वामी	17/1	0.445
6	प्रेमलाल वल्द कलू ढीमर सुपला	भूमिस्वामी	18/1	0.010
7	टीकाराम पुत्र कलू ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	18/2	
8	मुन्नालाल वल्द कलू ढीमर ग्राम भैंसाराखी	भूमिस्वामी	18/3	
9	देवकाबाई पत्नि सुराज सन्तोष वल्द सुराज ढीमर सा. अंडिया	भूमिस्वामी	18/4	
10	तुलसाबाई प्रदीप कमलेश पिता मुन्नीलाल यशोदा बाई लोधी वेवा मुन्नीलाल लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	19/2	0.012
11	डब्बू पूरन पिता थम्मन नन्हीबाई पत्नि स्व. थम्मन गौड़ सा. घुघरी	भूमिस्वामी	20	0.020

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा है.
1	2	3	4	5
12	लोटनसिंह रामप्रसाद कैसाबाई सावित्रीबाई गिरजाबाई नन्हीबाई पिता निजामसिंह लोधी सा. गुडवारा	भूमिस्वामी	21/1	0.004
13	टावलसिंह पुत्र पदमसिंह लोधी गुडवारा	भूमिस्वामी	21/2	0.025
14	श्रीराम आ. रतनसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	21/4	0.016
			21/6	0.016
15	पुहुपसिंह वल्द रतनसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	21/7	0.073
16	तुलसाबाई प्रदीप कमलेश प्रीति पिता मुन्नीलाल दशोदाबाई वेवा मुन्नीलाल लोधी सा. गुडवारा	भूमिस्वामी	21/5	0.036
17	सोवरन सिंह वल्द मातवर सिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	22/1	0.186
			34/3	0.183
18	शिवराज सिंह हनुमतसिंह पिता गनपत सिंह लोधी सा. घुघरी	भूमिस्वामी	22/2	0.020
19	शंकरलाल गनेश सिंह कमल सिंह पिता कन्हैयालाल लोधी	भूमिस्वामी	22/5	0.004
20	गेंदालाल अर्जुन केदार सिंह पिता पदमसिंह लोधी गुडवारा	भूमिस्वामी	22/6	0.020
21	कलू पुत्र छिददे मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	31/1	0.025
22	दशोदाबाई पत्नि केहरसिंह सन्तोष अच्छेलाल कमलाबाई कल्लूबाई ममता बाई पिता केहरसिंह मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	31/2	0.032
			34/2/1	0.061
23	हक्कीबाई पत्नि खूबसिंह सुखराम नन्हेलाल बत्तीबाई कल्लू ममताबाई पार्वतीबाई केशरबाई पुत्र पिता खूबसिंह सा.देह	भूमिस्वामी	34/2/2	0.105
24	श्रीमति द्रोपतीबाई जोजे छोटेलाल मलाह गुडवारा	भूमिस्वामी	35	0.130
			63/4	0.202
			64/2	0.044
			64/3	
			64/4	
25	मुन्नालाल आ. खुमानसिंह ढीमर सा. गुडवारा	भूमिस्वामी	62/1	0.328
26	सुरेशाबाई धर्मपत्नि स्व. शोभाराम मनीराम पिता शोभाराम तिज्जो बाई वेवा हरिराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	62/2	0.004
27	रेवतीबाई पत्नि प्रेम मुकेश मेरसिंह बाबूलाल छोटीबाई गुड्डाबाई पिता प्रेम नोरिया	भूमिस्वामी	63/1/1	0.050
28	तुलसीराम पिता भगुन्त नोरिया	भूमिस्वामी	63/1/2	0.050
29	मुन्नालाल पिता भगुन्त नोरिया	भूमिस्वामी	63/1/3	0.100
30	विनोद उर्फ वसंत पिता हक्कू नोरिया	भूमिस्वामी	63/1/4	0.148

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
31	लाखन सिंह शंकर सिबू तुलसीराम मुन्ना फूलाबाई पिता भगुन्त रेवतीबाई पत्नि प्रेम मुकेश मेरसींग बाबूलाल छोटीबाई गुड्डा पिता प्रेमशांति बाई पत्नि हक्कू लक्ष्मन विनोद जीजीबाई पिता हक्कू ढीमर	भूमिस्वामी	63/2	0.330
32	लाखन शंकर सिबू तुलसीराम मुन्ना पिता भगुन्त ढीमर लक्ष्मन पुत्र हक्कू विनोद कुमार पुत्र हक्कू जीजीबाई पुत्री हक्कू शांतिबाई पत्नि हक्कू ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	63/3	0.310
33	रामजी भरत पिता शंकर ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	64/5	0.010
			65/1	0.235
34	शंकर वल्द भगुन्त सिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	64/6	0.389
			65/2	
35	देवीसिंह पुत्र भगुन्त सिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	64/7	0.077
			65/3	
36	श्रीमति शारदाबाई पत्नि घनश्याम मेहरा	भूमिस्वामी	57	0.024
37	धर्मराज आ. हरीराम भूरीबाई सम्पत बाई पत्नि हरीराम गौड सा.देह	भूमिस्वामी	56	0.090
			66	0.664
38	वक्तारसिंह वल्द हीरालाल गौड सा.देह	भूमिस्वामी	55/1	0.041
39	कलाबाई पत्नि प्रताप सरोदीबाई जीजीबाई संध्याबाई गोमती पार्वती पिता प्रताप सा. गुडवारा	भूमिस्वामी	67/1	0.115
			68/1	
40	मुन्नालाल आ.स्व. कंधई मलाह गडवारा	भूमिस्वामी	67/2	0.115
			68/2	
41	सरोजनीबाई उर्फ सद्दो वेवा रामस्वरूप कमलेश धरमवती बाई पिता रामस्वरूप गुडवारा	भूमिस्वामी	67/3	0.115
			68/3	
42	जुगराज पुत्र कंधई मलाह सा. गुडवारा	भूमिस्वामी	67/4	0.180
			68/4	
43	लालमति वेवा काशीराम यशवन्त पिता काशीराम मलाह गुडवारा	भूमिस्वामी	67/5	0.115
			68/5	
44	मां नर्मदा सरंक्षण न्यास अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पिता बलभद्रसिंह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमति अमृताराय पति दिग्विजय सिंह पता मालवीय नगर भोपाल	भूमिस्वामी	69/1	0.603
			69/2	0.202
			69/3	0.369
			70	0.048
45	ओंकार गोविन्द नन्हेलाल छोटेलाल पिता खूबसिंह मुन्नीबाई जोजे कोमल लाखन टावल रोषाबाई दुर्गाबाई मुन्नीबाई सुशीला पिता तखई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	93	0.263
			95	0.081

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
46	अन्नीलाल सेवाराम पुत्र भरोसी ढीमर सा. देह	भूमिस्वामी	92	0.010
			94	0.041
			160/1	0.194
47	बड्डू वल्द पुरूऊ अहीर सा.देह	भूमिस्वामी	158/2	0.052
			159/2	
48	रामचरन बबलू मंतीबाई पुत्री नर्मदा प्रसाद मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	149/1/2	0.066
			151/1/2	
49	श्यामलाल आ. जीवन लाल यादव जबलपुर	भूमिस्वामी	149/2	0.015
			151/2	
कुल योग				7.921

1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-43 के हितग्राही का नाम न्याया. न.त.प्र.क्र. 0624/अ-6/2023/24/आ.दि. 08.02.2024 के अनुसार संशोधित किया गया है।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
4. चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-656-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 05 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	कोठार
(ङ.)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 3.6350 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	388/1	0.0460	अखिलेश कुमार पुत्र अंजनी कुमार ब्रा.
2	389/3	0.1340	सीताशरण पिता हिन्धमणि राम ब्रा.
3	389/4	0.0400	कुन्ती देवी बेबा ददी राम ब्राम्हण
4	397/1	0.2000	अखिलेश कुमार पुत्र अंजनी कुमार ब्रा.
5	397/2	0.2680	रामकृष्ण पिता हरिराम ब्रा.
6	402	0.0170	मु. कौशल्या बेबा शिवानन्द, शशिभूषण, रामभूषण पिता शिवानन्द राम 1/2, रामायण प्रसाद पिता शंकर प्रसाद, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर प्रसाद 1/2 ब्रा.
7	403/2	0.0130	त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण तिवारी
8	404/1/1/1	0.0310	राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
9	404/1/2	0.0040	रितिक कुमार पिता बृजेन्द्र कुमार तिवारी
10	404/1/3	0.0040	प्रभात कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
11	404/1/4	0.0040	राजीव कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
12	404/1/5	0.0040	सतीश कुमार पिता गंगा प्रसाद तिवारी
13	404/1/6	0.0040	प्रभात कुमार पिता गंगा प्रसाद तिवारी
14	404/2	0.0040	रामकली सिंह पत्नी लक्ष्मिन सिंह गौड़
15	405/1/1	0.0700	मु. कौशल्या बेबा शिवानन्दन, शशिभूषण, रामभूषण पिता शिवानन्द राम 1/2, रामायण प्रसाद पिता शंकर प्रसाद, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर प्रसाद 1/2 ब्रा.
16	405/2	0.0700	पारसनाथ पिता रंगनाथ राम ब्रा.
17	405/3	0.0600	राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
18	433/1/1	0.0150	राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
19	433/1/2	0.0120	अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल तिवारी
20	433/2/2	0.0040	श्रीमती पिक्की पत्नी दिनकर प्रसाद तिवारी
21	433/2/3	0.0040	राजेश कुमार पिता रामबिहारी तिवारी
22	433/2/4	0.0040	संतोष कुमार पिता कैमला प्रसाद
23	433/2/5	0.0040	वंशमणि पिता रघुवीर प्रसाद
24	433/2/6	0.0040	रविकुमार पिता रामजी तिवारी ना.बा. संरक्षिका माता संगीता तिवारी

25	433/2/7	0.0040	कमलेश पिता रामजी तिवारी
26	433/2/8	0.0040	सुरेश कुमार पिता रामबिहारी तिवारी
27	524	0.1280	पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
28	525	0.1150	पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
29	526	0.0030	पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
30	530/1	0.0300	द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण चन्द्रिका रामकुमार पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण, सोनवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा, सुफलता, पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार ना.बा.सं. माता
31	530/2/1/5	0.0200	सुचित कुमार पिता आत्माराम तिवारी
32	530/2/1/1/1	0.0300	सुखेन्द्र प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद
33	530/2/2	0.0300	श्रीमती प्रियंका पत्नी सुखेन्द्र प्रसाद तिवारी
34	530/2/3	0.0300	अनीता पत्नी द्वारिका प्रसाद तिवारी
35	530/2/1/6	0.0100	संदीप कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
36	530/2/1/2	0.0200	विपिन कुमार पिता कंदार प्रसाद मिश्रा
37	530/2/4	0.0300	श्रीमती शालिनी सिंह पत्नी धुवराज सिंह
38	530/2/1/3	0.0200	श्रीमती सविता पत्नी विपिन कुमार मिश्रा
39	530/2/1/4	0.0200	रामकुमार पिता विजयशंकर मिश्रा
40	533	0.0370	द्वारिका प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण चन्द्रिका रामकुमार पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण, सोनवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा, सुफलता, पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार ना.बा.सं. माता
41	537/2	0.0430	प्रवीण कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा.
42	610/2	0.0100	संजय कुमार अनिल कुमार पिता धर्मपाल ब्रा.
43	610/3	0.0900	अनिल कुमार पिता धर्मपाल तिवारी
44	610/4	0.0710	पारसनाथराम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
45	614	0.0050	द्वारिका प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण चन्द्रिका रामकुमार पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण, सोनवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा, सुफलता, पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार ना.बा.सं. माता
46	615/2/1	0.0100	सुनीता सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
47	615/2/2	0.0040	दुवराज सिंह पिता पुष्पराज सिंह
48	615/2/3	0.0040	जीवेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल सिंह
49	615/2/4	0.0040	नीतेश कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह
50	615/3/2	0.0040	भोला सिंह पिता दददी सिंह
51	615/3/3	0.0050	खुशीराम पिता सियाराम
52	615/3/4	0.0050	प्रेमप्रकाश पिता रघुवीर प्रसाद
53	615/3/5	0.0100	श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी संजय सिंह
54	615/4/1	0.0300	उपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह 3/4, दिनेश प्रताप सिंह पिता फुलवन्त सिंह 1/4
55	615/4/2	0.0100	रघुवीर प्रसाद पिता सुखई प्रसाद
56	615/4/3	0.0100	कमलेन्द्र सिंह पिता सुधीर कुमार सिंह
57	615/4/4	0.0100	शिवम कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
58	615/5	0.0100	दिवाकर सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
59	615/6/1	0.0100	पुष्पेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
60	615/6/2	0.0040	राखी सिंह पुत्री राजबली सिंह परिहार
61	615/6/3	0.0040	सदीप कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र बहादुर सिंह
62	615/6/4	0.0040	श्रीमती रंजना देवी पत्नी भूपेन्द्र सिंह बघेल
63	615/7	0.0100	पुष्पराज सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह बघेल
64	615/8	0.0040	भारत सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
65	615/9	0.0040	दिलराज सिंह पिता बाबूलाल सिंह चौहान

66	615/10	0.0040	रविराज सिंह पिता बाबूलाल सिंह चौहान
67	615/11	0.0100	श्यामवती पत्नी रघुवीर प्रसाद
68	615/12	0.0040	श्रीमती वैभव पत्नी अशोक गोस्वामी
69	615/13	0.0040	प्रशान्त सिनोदिया पिता एस.आर. सिनोदिया
70	615/14	0.0220	भूपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह 19/23, श्रीमती रीना सिंह पिता नीरज सिंह 2/69, प्रकाश सिंह पिता नारेन्द्र सिंह 2/23, रिद्धिमा सिंह पुत्री नीरज सिंह 2/69, आयुषी सिंह पत्नी नीरज सिंह 2/69,
71	396/1/1/3	0.0040	श्रीमती रामकली पति विष्णु बहादुर
72	396/1/2	0.0050	राकेश कुमार सिंह पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह
73	396/1/4	0.0050	प्रिस कुमार पिता कन्हैयालाल सिंह
74	396/1/3	0.0050	दीपक सिंह पिता कन्हैयालाल सिंह
75	396/1/5	0.0050	छविनाथ पिता रामगुलाब
76	396/1/6	0.0040	गोविन्द पिता माधव प्रसाद
77	396/1/1/6	0.0040	रिंकू पिता सियाराम
78	396/1/1/7	0.0040	चन्द्रकेश पिता हृदयलाल
79	396/1/1/8	0.0040	श्रीमती रेनू पति संदीप कुमार
80	396/1/1/9	0.0040	कृष्ण कुमार पिता राधे श्याम
81	396/1/1/10	0.0040	सतेन्द्र पिता बद्री प्रसाद
82	396/1/14	0.0040	आशुतोष पिता अखिलेश मिश्रा
83	396/1/15	0.0040	निरजा पत्नी दामाशंकर मिश्रा
84	396/1/16	0.0040	जयप्रकाश पिता आदित्य प्रसाद तिवारी
85	396/3	0.0040	साधना देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
86	396/4	0.0040	संगीता देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
87	396/5	0.0040	सरिता देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
88	396/6	0.0040	कम्मू देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
89	396/7	0.0140	दामोदर प्रसाद पिता रामकृष्ण तिवारी
90	396/8	0.0120	सुनीता पत्नी दामोदर प्रसाद
91	396/1/8	0.0040	नारायण प्रसाद पिता तेजप्रताप
92	396/1/29	0.0040	निशिकान्त पिता आशुतोष तिवारी
93	396/1/34	0.0040	शशीकान्त पिता आशुतोष तिवारी
94	396/1/32	0.0040	माला मिश्रा पिता बृजेन्द्र मिश्रा
95	396/1/43	0.0040	शीतल पिता राकेश चतुर्वेदी
96	396/1/41	0.0040	सुस्मिता पति नारायण प्रसाद तिवारी
97	396/1/18	0.0040	सौरभ पिता रामायण प्रसाद तिवारी
98	396/1/11	0.0040	प्रीतम पिता मोतीलाल तिवारी
99	396/1/30	0.0040	प्रशान्त सिंह पिता रवीन्द्र बहादुर सिंह
100	396/1/40	0.0040	प्रिया सिंह पिता लल्लू सिंह
101	396/1/42	0.0040	प्रीती सिंह पति विक्रम सिंह
102	396/1/46	0.0040	विकास पिता रामप्रसाद सेन
103	396/1/22	0.0040	मुस. अन्जु बेबा अशोक कुमार केवट
104	396/1/20	0.0040	अजय कुमार पिता श्यामलाल केवट
105	396/1/21	0.0040	शिव कुमार पिता रामजियावन केवट
106	396/1/17	0.0040	अर्चना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा
107	785/2/2	0.0320	पारसनाथ, राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
108	779/1	0.0300	मु० शीला सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह, पुष्पराम सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, दिवाकर सिंह, उपेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह
109	779/2	0.0600	प्रमिला सिंह बेबा फुलेल सिंह 1/2, राजराखन सिंह पिता फुलेल सिंह 1/2
110	779/3	0.0400	जितेन्द्र सिंह पिता रामबहादुर सिंह
111	779/4	0.0500	सुभाष प्रताप सिंह पिता रामबहादुर सिंह

112	779/5	0.0500	आदेश सिंह पिता रामबहादुर सिंह
113	779/6	0.0500	विनय सिंह पिता रामबहादुर सिंह
114	782/1/1	0.0600	प्रमिला सिंह बेबा फुलेल सिंह बघेल 1/2, राजराखन सिंह पिता फुलेल सिंह 1/2
115	782/2	0.0600	जितेन्द्र सिंह पिता रामबहादुर सिंह बघेल
116	782/3	0.0600	सुभाष प्रताप सिंह पिता रामबहादुर सिंह
117	782/4	0.0600	आदेश सिंह पिता रामबहादुर सिंह
118	782/5	0.0500	विनय सिंह पिता रामबहादुर सिंह
119	805/8	0.0400	पारसनाथ पिता रंगनाथ राम 1/2, राजमणि राम पिता रंगनाथ राम 1/2 जाति ब्रा०
120	805/9	0.0600	मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका, रामकुमार, रजमन्ती पिता सत्यनारायण, मुस. सोमवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा. सं. माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा०
121	807	0.0200	भोला राम पिता चन्द्रभान राम जाति ब्रा०
122	808/1	0.0450	अंजनी कुमार, बुद्धसेन, विद्यासागर पिता लक्ष्मिन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिन्धमणि राम, सीताराम, रोहिणी प्रसाद पिता हिन्धमणि राम मुस. कुन्ती बेबा कृष्णमणि राम
123	808/2	0.0450	मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका, रामकुमार, रजमन्ती पिता सत्यनारायण, मुस. सोमवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा. सं. माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा०
124	808/3	0.0400	रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम, शिवानन्द राम पिता जगत राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम जाति ब्रा०
125	808/4/1	0.0100	अरुणा पत्नी विनोद कुमार तिवारी
126	808/4/2	0.0100	श्रीकान्त पिता सुशील कुमार तिवारी
127	808/5	0.0800	लोकमणि पिता कालिका राम 1/3, रमेश कुमार, अरुण कुमार, विनोद कुमार पिता शेषमणि 1/3, अनिरुद्ध प्रसाद पिता कालिका राम 1/3 जाति ब्रा०,
128	808/6	0.0500	रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम, शिवानन्द राम पिता जगत राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम जाति ब्रा०
129	808/7	0.0600	अंजनी कुमार, बुद्धसेन, विद्यासागर पिता लक्ष्मिन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिन्धमणि राम, सीताराम, रोहिणी प्रसाद पिता हिन्धमणि राम मुस. कुन्ती बेबा कृष्णमणि राम
130	808/8/1	0.0700	मुस. धर्मवती बेबा भोलाराम, अश्वनी राम, श्यामधर, कुसुम, आयषा पिता भोलाराम, रामरखवारे पिता चन्द्रभान राम 0.125, शिवप्रसाद पिता उदयभान, छविनाथ पिता इन्द्रभान राम 0.255, सीतावती, सावित्री पिता सूर्यनारायण
131	808/8/3	0.0400	विनोद कुमार पिता सुशील कुमार तिवारी
132	808/9	0.1500	पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम 1/2 राजमणि राम पिता रंगनाथ राम 1/2 जाति ब्रा०
133	808/10	0.0900	मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका, रामकुमार, रजमन्ती पिता सत्यनारायण, मुस. सोमवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा. सं. माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा०
134	809	0.0220	मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका रामकुमार, रजवन्ती पिता सत्यनारायण मुस. सोमवती बेबा राजकरण त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार, नावा.सं. माता शकुन्तला, द्वारिका प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/5, पारसनाथ, राजमणि पिता रंगनाथ राम 1/5, लक्ष्मिन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिन्धमणि राम, सीताराम, रोहिणी प्रसाद पिता हिन्धमणि राम, मुस. कुन्ती देवी बेबा कृष्णमणि राम 1/5, शेषमणि, लोकमणि, अनिरुद्ध प्रसाद पिता कालिका राम 1/5, रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम, शिवानन्द पिता जगत राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम, 1/5 हिस्सा
135	511	0.0040	पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा०
136	605	0.0050	द्वारिका पिता जगदेव राम 1/4 हि. राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/4 हि.; मु. चितमनिया बेबा सत्यनारायण 1/16, रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/16, चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/16, रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/16, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/4, सोमवती बेबा राजकरण 1/12, चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/16, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण 1/12, शकुन्तला बेबा मनोज कुमार 1/60, रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/16, रजमन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/16, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60, शकुन्तला बेबा मनोज कुमार 1/60, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60, अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/60, सोमवती बेबा

			राजकरण 1/12, त्रिवेणी पिता राजकरण 1/12, सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/7, अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/60, सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/7, पद्माकर पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60 जाति ब्राह्मण
137	633	0.0150	जय सिंह पिता कृष्णराज सिंह परिवार 1/4, हिंगुआ बेबा छविनाथ 1/72, जवाहरलाल पिता छविनाथ 1/72, उर्मिला बेबा अजय तिवारी 1/216, अनिल पिता अजय तिवारी 1/216, दीपनारायण पिता अजय तिवारी 1/216, मु. चित्तोनिया बेबा सत्यनारायण 1/64, चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/64, रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/64, रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/64, सोनवती बेबा राजकरण 1/48, त्रिवेणी पिता राजकरण 1/48, शकुन्तला बेबा मनोज 1/240, अन्नपूर्णा ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला पिता मनोज कुमार 1/240, सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/240, पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/240, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार 1/240, मु. कौशल्या बेबा शिवानन्द 1/36, रामकृष्ण पिता हरिहर राम 1/12 गुजरतुआ बेबा शंकर 1/24, रामायण पिता शंकर 1/24, शिवप्रसाद पिता उदयनाथ 1/24, रामभूषण पिता शिवानन्द 1/36, द्वारिका प्रसाद पिता जगदेव राम 1/16, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/16, भोला राम पिता चन्द्रनारायण 1/24, रामरखवारे पिता चन्द्रनारायण 1/24, सूर्यनारायण पिता इन्द्रभान 1/24, सुशील कुमार पिता चन्द्रनारायण 1/24, शशिभूषण पिता शिवानन्द 1/36,
138	394	0.0410	अमन कुमार पिता दमोदर प्रसाद तिवारी
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		3.6350	—

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-0003-अ-82-2024-25

सीहोर, दिनांक 08 अगस्त 2024

क्रमांक 0003/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर/बरी	भूमि - 5.604 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

—: अनुसूची - 2 :-

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (सिज्ती) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	289/98/1/1	2.217	0.848	
2	बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5/2 6/3/1	1.618 0.509	0.030 0.080	
3	सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	9/5/1	1.554	0.040	
4	सीमाबाई बेवा विश्राम सिंह अनुराग ना बा पुत्र विश्राम सिंह महिमा ना बा पुत्री विश्रामसिंह संरक्षक माता स्वयं जाति देशवाली पता बरी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	9/3/1/1	1.614	0.101	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (निजी) हे.में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
5	सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 290/98/2/1	0.682	0.040	
6	ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 19/1/2	0.162	0.120	
7	भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 11/2/1	1.106	0.115	
8	रामस्वरूप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 21/1 20/1	0.534 1.307	0.050 0.180	
9	परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 29/2/1	0.668	0.180	
10	योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 6/4/1 6/2/1	0.878 0.122	0.030 0.020	
11	हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 11/1/1	0.587	0.175	
12	राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 16/2/1/1	2.849	0.160	
13	राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 9/11	0.781	0.135	
14	पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 17/3/1	0.641	0.045	
15	ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 17/2/1	0.549	0.329	

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे.में	अर्जित रकबा (जिला) हे.में	रिमाक
1	2	3	4	5	6
16	संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	9/8	0.809	0.020	
17	भारतसिंह पिता रामचंद जाति देशवाली पता नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	289/4	1.100	0.282	
18	कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	9/6	1.145	0.340	
19	मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	289/2/5/2	0.277	0.089	
20	विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	9/9	1.073	0.101	
21	रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	289/98/3	1.214	0.350	
22	पकज पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	9/12	1.073	0.085	
23	सरजनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ✓	3/2	4.088	0.788	
24	श्रीकिशन पिता परसराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	9/1/1	1.368	0.050	
25	बनबारी मनोज पिता हेमराज जाति देशवाली पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ✓	289/98/2/2/1	0.798	0.447	
		289/98/2/7	0.502	0.038	
26	मोहनसिंह पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ✓	289/2/5/1	0.277	0.142	
27	घीसीबाई बेवा अमरसिंह ओमप्रकाश गोपाल पुत्र अमरसिंह प्रेमबाई गायत्रीबाई पुत्री अमर सिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग समान सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	289/2/6-98	0.405	0.177	
28	राकेश पिता अवधनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ✓	9/10	0.101	0.017	
	कुल योग :-	✓ 32	32.608	5.604	✓

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

सीहोर, दिनांक 09 अगस्त 2024

क्रमांक 0004/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची - 1 :-

भूमि				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
सीहोर	श्यामपुर/पड़याला	भूमि - 10.355 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	राजा शुभम पिता प्रकाश जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2, प्रकाश पुत्र धनसिंह पता पड़ियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4, घीसीबाई पिता धनसिंह पता पड़ियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4	11/2/1	0.078	0.050	
2	हेमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति जाट पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	28/1/2/1	0.707	0.707	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
✓ 3	हेमसिंह पिता नारायण सिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 14/2/1	2.465	0.200	
✓ 4	जीतेन्द्रसिंह पिता मोंगीलाल जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2, जसवंतसिंह उर्फ नरेंद्र पुत्र मोंगीलाल जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2	✓ 44	2.225	0.190	
✓ 5	छोटेराल पुत्र नन्नूलाल जाति कुम्हार पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 92/2/2/4/1	0.383	0.300	
6	आशाबाई पति लखन सिंह जाति जाट पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 221/2/2/1/1	0.404	0.160	
✓ 7	सुन्दरबाई बेवा बृजलाल जाति चमार पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 326/2/7/1	0.500	0.500	
✓ 8	लीलाकिशन पुत्र हरचंद जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 326/2/5/1	0.600	0.600	
✓ 9	रामकुंवरबाई बेवा हरी सिंह जाति सुतार पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 92/2/2/2	0.769	0.650	
✓ 10	ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट पता नि० ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 17/1/2 17/2. 18/2. 21. 22/2ख	0.809	0.380	
✓ 11	रविकुमार पुत्र हेमसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 30/1/1	2.140	1.200	
✓ 12	गोरिया उर्फ गोपीलाल पिता घीसीलाल जाति चमार पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 326/2/10	1.092	0.160	
✓ 13	प्यारेलाल पुत्र हजारीलाल जाति चमार पता नि० ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	✓ 326/2/11	1.092	0.150	
✓ 14	नत्था पुत्र गोरेलाल जाति चमार पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	✓ 450/229	0.053	0.053	
✓ 15	देवकरण पुत्र रुगनाथ सिंह जाति घोषी पता नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 446/42/2	1.332	0.130	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
✓ 16	सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति घोषी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ✓	474/42/1	0.955	0.400	
✓ 17	रुगनाथसिंह पुत्र फतेह सिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	444/16/1	1.691	0.400	
✓ 18	जसमतसिंह पिता नारायणसिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	444/16/2	1.688	0.450	
		13/1	2.202	0.220	
✓ 19	कृष्णाबाई पत्नी रघुवीरसिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	28/3	0.251	0.251	
✓ 20	धर्मेन्द्र पुत्र कमलसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	8/3/2 9/1 20/2/1	0.563	0.350	
		7/2/2 8/1	0.777	0.777	
✓ 21	माखन सिंह पिता प्रभुलाल जाति जाट पता पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	8/3. 9/1, 20/2/1/1	0.603	0.350	
✓ 22	अजावसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	47/1	0.748	0.060	
✓ 23	पेपकुंवरबाई बेवा भगवानसिंह जाति ठाकुर पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि.1/3, अरविन्द पिता भगवानसिंह पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, अभिषेक पिता भगवानसिंह पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3 ✓	47/3	0.748	0.320	
✓ 24	निर्मयसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	47/4	0.748	0.060	
✓ 25	कृष्णासिंह पुत्र बनेसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ✓	47/2	3.626	0.450	

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा हे. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
✓ 26	भंवरलाल पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, कमलसिंह पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, प्रेमनारायण पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4 आत्माराम पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4	✓ 330	0.607	0.607	
✓ 27	रामबाबू पुत्र हीरालाल जाति जाट पता निवासी ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 30/1/5	0.534	0.140	
✓ 28	बने सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	✓ 17/1/4	1.154	0.090	
	कुल योग :-	30	31.544	10.355	✓

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं परिसंपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि/परिसंपत्ति का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम - महुआखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल - 5.513 हैं. भूमि तथा 511.64 वर्ग मीटर परिसंपत्ति

—: अनुसूची - 2 :-

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हैं. में	अर्जित रकबा (निजी) हैं. में	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	गयारसीरामबटनलालराजाराम भूरीबाईरेखाबाईपुत्रपुत्रीयागोपालरामकलीबाई बेवा गोपाल जाति चमार पता निवासी ग्राम स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	65/1/1	1.061	0.700	
2	कलीबाई पिता हजारी जाति बलाई पता महुआखेड़ी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	65/5/1	1.123	1.123	
3	महेन्द्र सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/3/1	0.521	0.053	
4	गजराजसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1	0.154	0.154	
5	कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूड़ी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशातिबाईमुंशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर अहस्तांतरणीय	65/4	2.023	2.023	
6	अजुध्याबाई बेवा बापूलाल ब्रजराज रामलखन अतर बाई कोमल बाई सुनीता बाई राधाबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2/1, 67/2/1	1.975	0.980	

7	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	65/3	1.311	0.480						
	कुल योग :-	7	8.168	5.513						
निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्ति										
स.क.	मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्ग.मी.	कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग धर्मवीर हेमन्तसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी	33	1	ईट की दीवार	16.00	0.225	3.60	4.65	राकेश पिता सूरज सिंह जाति गुजर ग्राम महुआखेड़ी	1. ईट की दीवार का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को ईट की दीवार बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
2	कनीराम पुत्र अमरसिंह जाति लोड़ा पता निवासी ग्राम सीहोर	61/6, 103/61/6	2	हनुमान मंदिर निजी	5.20	8.10	42.12	383.18	कमल सिंह, कनीराम, सरजन सिंह, प्रीतम सिंह पिता अमर सिंह रायनिवास पिता रायसिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	शिखर 3 नग, 1.स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
				हनुमान मंदिर की देतान	14.20	4.30	61.06			
				हनुमान मंदिर का फर्श सी.सी.	20.00	14.00	280.00			
3	बलमत सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	13/1	3	पक्का चबूतरा	3.90	3.10	12.09	12.09	दीप सिंह पिता गणपत सिंह जाति गुजर ग्राम महुआखेड़ी	1 पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।

4	कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता भुशीलाल भवडी बाई पुत्री भुशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रग णजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिबाईशुशी लाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गूजर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	4	पक्का चबूतरा	2.00	2.00	4.00	4.00	कंचनसिंह पिता भुशीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1.स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
5	हरिओम पुत्र भगवतसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सीहोर	23	5	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.50	6.25	6.25	हरिओम पिता भगवत सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1.स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
6	बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश	80/2/1	6	पक्का चबूतरा	2.00	2.00	4.00	4.00	बाबूलाल पिता जगन्नाथ जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1.स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
7	आजाद सिंह पिता हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. सम्पतबाई बेवा हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. कैलाशबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. कृष्णाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. रुशाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. पवित्राबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. रामश्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. गायत्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 पता निवासी ग्राम भूमि रदासी श्यामपुर सीहार	18/2	8	पक्का चबूतरा	2.25	2.25	5.06	5.06	सम्पत बाई पति हीरालाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1.स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।

8	भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	9	पक्का चबूतरा छतरी	3.50	3.50	12.25	12.25	सुमेर सिंह, सुगना बाई जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1. पक्का चबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
9	भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	10	पक्का चबूतरा	4.80	1.90	9.12	9.12	भजन सिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
10	फतेहसिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता महुआखेड़ी सीहोर मध्य प्रदेश	13/2	11	पक्का चबूतरा छतरी	4.00	2.50	10.00	16.97	फतेह सिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1. स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
	विजय सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश	93/2/1		पक्का पानी टैंक	4.10	1.70	6.97			1. पक्का पानी टैंक का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का पानी का टैंक बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
11	मगवती बाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती शूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आ 10 बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/2	12	पक्का चबूतरा छतरी	3.00	3.00	9.00	9.00	भूली बाई पति सरजन सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	1. पक्का चबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा छतरी बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवाई दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।

12	अमरसिंह पुत्र संवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	46/4	13	पक्का चबूतरा	5.10	5.30	27.03	27.03	हंदर सिंह पिता चैन सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	1. पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर मवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
13	भगवती वार्ड बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गुजर भागवती भूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आठ बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/2	14	पक्का चबूतरा	2.50	2.00	5.00	5.00	बने सिंह पिता बापूलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	1. स्वयं 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
14	संवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग धर्मवीर हेमैन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी	106/29	16	पक्का चबूतरा	1.90	1.60	3.04	3.04	सीताराम पिता जालम सिंह, चंदर सिंह पिता जालम सिंह जाति गुजर ग्राम महुआखेड़ी	1. पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर मवन स्वामी के पक्ष में आया है। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
15	प्रीतम आठ अमरसिंह जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	102/61/1 1	18	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.00	5.00	5.00	भगवान सिंह पिता कमल सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	1. अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
16	प्रीतम आठ अमरसिंह जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	102/61/1 1	19	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.00	5.00	5.00	कल्याण सिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	1. अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा। 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
कुल योग :-							511.64	511.64		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-934-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 15 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर /ग्राम - खुट्टहा

(घ) क्षेत्रफल- 3.3890 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
(1)	(2)	(3)
1	124	0.0580
2	123	0.1780
3	122	0.0020
4	121	0.0210
5	120/1	0.1310
6	120/2	0.0550
7	119	0.0200
8	100	0.0090
9	99/1	0.0530
10	99/2	
11	98	0.0650
12	97/1	0.1460
13	97/2	
14	96	0.0810
15	94	0.0240
16	105	0.2440
17	106	0.2350
18	107	0.0860
19	108	0.0500
20	104	0.0200
21	109	0.3010
22	59/1	0.3640
23	59/2	
24	59/3	
25	58/1	0.0200
26	58/2	0.0200
27	58/3	0.0200
28	57/1/1	0.0440
29	57/1/2	
30	57/2	
31	56	0.0210
32	41/1	0.5340
33	41/2	
34	41/3	
35	42	0.5620
36	43/1	0.0250
37	43/2	
रकबा कुल योग-		3.3890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1759-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 5 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम -बरहटा

(घ) क्षेत्रफल- 5.2030 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	51/1/1	0.1280
2	51/1/2	0.1340
3	51/1/3	0.1340
4	51/2/1/1	0.0740
5	48/2	0.0290
6	48/3	0.1260
7	48/5	0.0520
8	53/1/1	0.0760
9	53/1/2	0.1000
10	53/1/3	0.1180
11	53/2	0.1240
12	161	0.1980
13	164/1/3	0.0520
14	164/1/4	0.0940
15	169/1	0.0720
16	169/2/1	0.0470
17	169/2/2	0.0470
18	170	0.0400
19	189/1/1	0.2630
20	189/1/2	0.1230
21	191/2	0.1080

22	192/1	0.0080
23	192/2	0.1620
24	202/2	0.0730
25	201/1	0.0460
26	203/1	0.0390
27	203/2	0.0390
28	204/1	0.0300
29	210/1	0.0300
30	212	0.0090
31	214/1	0.1160
32	214/2	0.0030
33	215/1	0.0940
34	215/2	0.0040
35	329/1/2	0.0040
36	310	0.1900
37	308	0.0520
38	311	0.0450
39	312	0.0910
40	313	0.0030
41	306/1	0.0270
42	209/1	0.0600
43	209/2	0.0600
44	307/1	0.0060
45	329/3/3	0.1680
46	329/3/4	0.0760
47	329/3/2	0.0070
48	329/4/2	0.1080
49	213	0.1000
50	216/2	0.0070
51	232/3	0.0110
52	160/1	0.0560
53	159/1/1	0.0800
54	159/1/2	0.0210
55	159/2	0.0080
56	157	0.0130

57	96	0.0520
58	87/3	0.0740
59	91/2/2	0.0660
60	91/2/1	0.0160
61	95	0.1900
62	94/1/1	0.0300
63	94/1/2/1	0.0700
64	94/1/2/2	0.0300
65	29/2	0.1940
66	29/1/6	0.0030
67	29/1/1	0.0430
68	29/1/2	0.0450
69	29/1/3	0.0470
70	29/1/4	0.0610
71	29/1/5	0.0570
72	25	0.0840
73	26	0.0840
74	14	0.0180
75	24	0.0540
	कुल योग रकबा हे. में-	5.2030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1760-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम -उमरी उर्फ शिवराजी

(घ) क्षेत्रफल- 3.5300 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
1	2	3
1	610	0.0020
2	616/2	0.0520
3	617/1	0.2430
4	301/1	0.2220
5	301/2	0.1490
6	300	0.0280
7	211	0.1260
8	299	0.0090
9	229	0.0020
10	298	0.0080
11	230	0.0410
12	297	0.0100
13	296/1	0.2310
14	294	0.1770
15	251/1/3	0.1240
16	251/2/4	0.0150
17	67/2	0.1780
18	69/1	0.0180
19	69/2	0.0180
20	68/1	0.1470
21	60/1	0.1760
22	60/2	
23	60/3	
24	60/4	

25	61/1	0.0080
26	61/2	
27	61/3	
28	57/1	0.1750
29	57/4	0.0640
30	57/6	0.0080
31	49/1	0.0470
32	50/2/3	0.2060
33	51/1	0.1260
34	35	0.1180
35	30	0.1510
36	31	0.0040
37	29	0.0580
38	28	0.0600
39	1168	0.0150
40	27	0.0740
41	1164	0.0690
42	1163	0.0830
43	1162	0.0130
44	1156	0.0420
45	1157	0.0590
46	1161/1	0.0080
47	1167	0.1650
48	1158/1	0.0010
	कुल रकबा हे.में-	3.5300

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर के उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1761-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - खेरिया कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 2.4140 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे. में
(1)	(2)	(3)
1	55/1/1	0.0360
2	55/2	0.0020
3	55/3	0.0020
4	55/4	0.0020
5	55/5	0.0020
6	1/8	0.2630
7	1/10	0.0200
8	1/11	0.0020
9	1/12	0.1300
10	1/13	0.1680
11	14/1	0.1680
12	14/2	
13	14/3	
14	46/1/3/1/2	0.5200
15	46/1/1/2	
16	46/1/20/1	
17	46/1/20/2	
18	46/1/22/2	
19	46/1/1/1/1/1/2	
20	46/1/3/1/1	
21	46/1/23	0.5350
22	53/1/1	
23	53/1/2	
24	53/1/3	0.0060
25	56/1/1	
26	56/1/2	
27	56/1/3	0.0060
28	56/2	0.0020
29	56/3	0.0030
30	56/4	0.0030
31	56/5	0.0080
32	56/6	0.0080
33	56/7	0.0080
34	57/1/1/1/1	0.0160
35	57/1/2/1	0.0160
36	57/1/3/1	0.0160
37	57/1/3/2	0.0970
38	57/2	0.0300
39	57/3	0.0290
40	57/4	0.0290
41	57/5	0.0880
42	57/6/1	0.1050
43	57/6/2	
44	57/7	0.0880
कुल योग रकबा हे.में		2.4140

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1777-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 6 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (स.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर / ग्राम -ककलपुर

(घ) क्षेत्रफल- 2.7750 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	154/4	0.0450
2	154/6	0.2080
3	152	0.0200
4	151	0.1200
5	150	0.2410
6	164/1	0.0410
7	149	0.2150
8	132	0.0230
9	133	0.3610
10	130/2/1	0.0110
11	130/3	0.1500
12	129	0.0260
13	124/3317/3	0.1240
14	124/3317/3/2	0.0480
15	127	0.0410
16	124/3	0.1030
17	125/1	0.0370
18	125/2	0.0370
19	123/1	0.0120
20	122	0.0090
21	119/2	0.2040
22	120	0.0820
23	118	0.2840
24	207/1	0.2350
25	207/2	0.0980
	कुल योग रकबा हे.में-	2.7750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के तमरा वितरिका नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1778-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - ताला तलरी

(घ) क्षेत्रफल- 4.987 हे०

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	131	0.317
2	132/1	0.044
3	253/134	0.380
4	133/2	0.091
5	124	0.161
6	134/1	0.194
7	134/2	0.132
8	123/2	0.258
9	125/1	0.023
10	125/2	0.100
11	126/1	0.019
12	43	0.273
13	31	0.378
14	32/1	0.142
15	32/2	0.143
16	33	0.316
17	21	0.244
18	204/1/1	0.167
19	250/199	0.023
20	199/1/2	0.230
21	199/2/1/1	0.057
22	199/2/1/2	0.057
23	199/2/1/3	0.057
24	199/2/1/4	0.056

25	199/2/1/5	0.056
26	198/1	0.146
27	198/2/2	0.242
28	214/248	0.360
29	217	0.040
30	214	0.281
कुल रकबा हे.में-		4.987

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सीवा शाखा नहर के पड़रा वितरिका नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1779-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम - जमुनिहाई

(घ) क्षेत्रफल- 2.5520 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	31	0.1490
2	28	0.0600
3	27/1/1	0.1290
4	33	0.1700
5	23/1	0.4600
6	21	0.0140
7	20	0.1600
8	41	0.0160
9	19/1	0.0300
10	19/2	0.2710
11	45	0.0410
12	46/1	0.1000
13	46/2	0.1400
14	47	0.0700
15	18/2	0.3000
16	17	0.4000
17	59	0.0400
18	29	0.0020
	कुल योग रकबा हे.में-	2.5520

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-180-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 7 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम -खुखडा कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 0.3180 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	3/3	0.1040
2	3/4	0.1060
3	3/5	0.1060
4	4	0.0020
	कुल योग रकबा हे.में	0.3180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-99-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 6 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - जरियारी

(घ) क्षेत्रफल- 10.3070हे०.

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	8/1	0.6060
2	8/2	0.3030
3	8/3	0.2510
4	8/4	0.2090
5	7/3	0.0050
6	7/4	0.0230
7	6/2	0.0730
8	10	0.0420
9	12	0.4940
10	13	0.0830
11	14	0.0310
12	15	0.0020
13	5/1	0.1570
14	5/2	0.0420
15	4/2	0.2610
16	4/1	0.4050
17	257	0.3140
18	258	0.0520
19	259	0.0420
20	255/1	0.1360
21	255/2	0.1570
22	261	0.2120
23	262	0.0020
24	263	0.3720
25	254	0.0010
26	270/1/1	0.2510
27	270/4/2	0.2090
28	265/1	0.4550
29	265/2	0.5570
30	265/3	0.1800
31	465	0.0110
32	463	0.2090
33	464	0.2510
34	553/1	0.0520

35	553/2	0.0110
36	552/1	0.2820
37	552/2	0.2000
38	552/3/2	0.0520
39	555/1	0.1490
40	599/2/2	0.0060
41	563	0.1300
42	562/1/1	0.2090
43	467/1/1	0.0210
44	467/1/2	0.0210
45	467/2	0.0420
46	467/3/1	0.0140
47	467/3/2	0.0140
48	467/3/3	0.0030
49	558/1	0.1100
50	558/2	0.1100
51	558/3	0.1100
52	558/4	0.1090
53	601/1	0.1530
54	601/2	0.2980
55	608/1	0.0060
56	608/3	0.0150
57	609/1	0.0310
58	609/2	0.0010
59	609/3	0.0320
60	610/1/1	0.1170
61	610/1/2	0.0840
62	610/1/3	0.1050
63	610/2/1	0.2000
64	610/2/2	0.2410
65	610/3/2	0.0330
66	610/3/1	0.0320
67	611/1	0.0040
68	615/1/1	0.3330
69	615/1/2	0.0520
70	615/2	0.5270
योग		10.3040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-108-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 7 अगस्त 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - मूडी

(घ) क्षेत्रफल- 9.0780 हे०

क्र.	खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा
1	2	3
1	50/1	0.0410
2	60/1	0.0890
3	60/2	0.5270
4	64/1	0.0560
5	64/2	0.0350
6	64/3	0.0560
7	74/1	0.1410
8	20/1	0.0100
9	20/2	0.4680
10	77/2	0.0120
11	79/1	0.0130
12	79/3	0.0060
13	80/1	0.0840
14	80/2	0.2620
15	80/3	0.5230
16	81/2/1	0.0650
17	81/2/4	0.0150
18	81/2/5	0.0840
19	109/2/1	0.2710
20	109/2/2	0.4180
21	109/2/3	0.3660
22	110/2	0.1760
23	107/1	0.0320
24	107/3	0.2090
25	107/4	0.2080
26	52/1	0.1750
27	53/1/1	0.4500
28	53/2/1	0.1840
29	123/50/1	0.1620
30	44/1	0.1900

31	66	0.0020
32	65	0.1710
33	59/1	0.0140
34	59/2	0.1100
35	61	0.0180
36	62	0.1480
37	63/1	0.5650
38	63/2	0.3230
39	63/3	0.2380
40	22	0.0700
41	21	0.7650
42	78	0.2030
43	79/2	0.0260
44	112	0.2730
45	108	0.4210
46	107/2	0.4030
कुल योग्य रकबा		9.0780

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं भू-अर्जन
अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव**

क्र.-3161-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0092-बी-121-2024-25

भीकनगांव, दिनांक 30 जुलाई 2024

**प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन / ग्रेविटीमेन / ब्रांच माईनर पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भातलपुरा, प.ह.नं.- 38/100, रा.नि.मं.-भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- भातलपुरा, प.ह.नं.- 38/100,	40	0.039
			41	0.091
			42/4	0.048
			43/1	0.051
			43/2	0.039

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— भातलपुरा, प.ह.नं.— 38/100	43/3	0.072
			52/3	0.039
			53/3	0.024
			55/3	0.034
			54/2	0.004
			56/8	0.048
			75/1/3	0.046
				0.012
			78/1/1	0.012
			85/1	0.240
			87/2	0.024
			87/3	0.072
			93/1/8	0.030
			93/1/3	0.066
			93/1/2/1/1	0.048
			93/1/7	0.012
			159/2/1	0.120
			259/3/2	0.027
			426	0.012
			75/3	0.002
			95/1	0.036
			121/1	0.077
			123/1/1	0.070
			123/1/2	0.054
			123/1/3	0.030
			124/3	0.006
			149	0.027
			151	0.040
			153	0.030
			खरगोन	भीकनगांव
155/3	0.064			
155/4/2	0.027			
157	0.032			
कुल योग			37	1.732

क्र.-3163-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0093-बी-121-2024-25

भीकनगांव, दिनांक 30 जुलाई 2024

प्ररूप- "ख" { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं. 13, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं. 13	201/1	0.084
			203/2	0.096
			203/5	0.072
			203/9	0.174
			203/10	0.079

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— दौड़वा, प.ह.नं. 13	240	0.014
			241/1	0.014
			241/2	0.019
			261/4	0.051
			261/7	0.030
			261/8	0.030
			261/9	0.036
			262/2/1	0.036
			262/1/2	0.087
			262/2/3	0.072
			545	0.024
			546	0.163
			567/2	0.031
			569	0.090
			570	0.102
			573/2	0.051
			574	
			575/1/1	0.096
			578/1	0.048
			579/1	0.045
			586/1/1	0.018
			586/1/2	0.018
			586/2	0.048
			602/1	0.067
			602/2	0.017
			602/5	0.012
			602/3/1	0.012
			602/3/2	0.012
			602/4	0.018
			602/6	0.039

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— दौड़वा, प.ह.नं. 13	602/7	0.041
			602/8	0.060
			611/1	0.041
			613	0.076
			617/1	0.048
			619	0.012
			705/1/1/2	0.012
			705/1/1/3	0.055
			709/1	0.036
			709/3	0.051
			711/2	0.064
			711/3/1	0.004
			711/3/2	0.016
			711/3/3	0.017
			712/2/6	0.053
			712/3	0.074
			722	0.202
			725/1/2	0.089
कुल योग			52	2.756

क्र.-3165-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0095-बी-121-2024-25

प्ररूप- 'ख'
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93,	12 ✓	0.007
			13 ✓	0.007
			15/3	0.027
			18/7	0.036
			18/8	0.084

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— रोश्या, प.ह.नं.— 14/93,	31/2	0.015
			33/1	0.066
			33/2	0.038
			35	0.026
			37/3/2	0.048
			38/2	0.072
			44/4	0.042
			44/5	0.038
			45/1	0.019
			45/2	0.018
			45/3	0.018
			45/4	0.012
			46/7	0.040
			159	0.048
			161/2	0.115
162/1/1	0.079			
कुल योग			21	0.855

क्र.-3167-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0094-बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बंझर, प.ह.नं.- 37/99, रा.नि.मं.-भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंझर, प.ह.नं.- 37/99,	320/2	0.031
			322/2	0.096
			324/2	0.031
			437/5	0.048
			324/3	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंझर, प.ह.नं.- 37 / 99,	325	0.005
			433/1/1	0.027
			433/1/2	0.072
			433/1/3	0.039
			435/13	0.062
			433/4	0.015
			435/1	0.042
			436/2/1/2	0.043
			436/7	0.050
			437/3	0.132
			440/6	0.027
			441/1	0.082
			442/2	0.026
			445/1/1	0.053
			445/2/2	0.036
			589/1	0.113
			589/3	0.024
			589/4	0.015
			592/2	0.051
			595/1/1	0.005
कुल योग			25	1.163

क्र.-3169-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0091-बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोमला, प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सोमला, प.ह.नं.- 36/98,	114/1	0.072
			114/2	0.039
			115	0.051
			117	0.063
			127	0.063

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सोमला, प.ह.नं.- 36/98,	128/1/1	0.041
			128/1/2	0.036
			129/2	0.061
			130	0.010
			140/1	0.027
			140/2	0.007
			144/1	0.058
			157	0.082
			170/2	0.027
			171/2/1	0.031
			173/3	0.058
			175/1	0.012
			175/2/1	0.066
			175/2/2	0.048
			176	0.132
			181/4	0.066
230	0.031			
कुल योग			22	1.081

क्र.-3171-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.-0096-बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,	95/1	0.079
			95/2	0.024
			96	0.096
			98/2/2	0.108
			101/3	0.054
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,	103/1/2	0.041
			103/2	0.050
			103/4	0.048
			103/5	0.012
			103/6	0.028
			121/3	0.058
			103/7	0.028
			103/8	0.036
			121/2	0.186
कुल योग			14	0.848

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा

पत्र क्र.-2570-रीडर-1-2024

प्ररूप- 'ख'

खण्डवा, दिनांक 9 अगस्त 2024

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0025/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37,	3	0.072
			212	0.014
			213	0.066
			14	0.060
			228	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24 / 37,	15	0.105
			105/1	0.079
			210/1	0.084
			210/2/2	0.015
			231	0.029
				0.013
			233	0.015
				0.052
			234	0.016
			235	0.011
			247/1	0.182
			302/1	0.082
			313	0.052
			303	0.046
			259	0.051
			261/1	0.018
			261/2	0.024
			265	0.018
			264	0.024
			268/1	0.070
			268/2	0.048
			269	0.038
			236	0.011
			314	0.031
			349/2	0.062
				0.032
			349/1	0.081
				0.042
			350	0.028
			353/1	0.084
			353/2	0.041
			358	0.079
			1414	0.022
				0.021
			360	0.066
			363	0.036
			1058/1	0.008
				0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37,	364	0.075
			367/2/2	0.127
			339	0.064
			345/2	0.052
			345/3/1	0.064
			346	0.016
			347/2	0.022
			349/3	0.024
			1398/1	0.008
			716	0.035
			718/2	0.006
			718/5	0.026
				0.019
			718/3	0.027
			718/6	0.018
			718/4	0.027
			720	0.034
			721/1	0.048
			729	0.008
			735/2	0.050
			736	0.026
			754/1	0.048
			754/2	0.026
			754/3	0.014
			755	0.066
			758	0.021
			759	0.021
			760	0.021
			763	0.029
			764/1	0.032
			764/2	0.008
			765	0.028
			1312	0.088
			1314	0.030
			1383/2	0.016
			1384/1	0.024
			1411	0.027
			351	0.044

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37,	237/1	0.018
			237/2	0.006
			237/3	0.018
			238	0.018
			987/1	0.030
			633/1/1	0.030
			987/2	0.032
			986	0.008
			991/1	0.006
			993/2	0.048
			993/1	0.003
			995	0.029
			996	0.016
			999/3	0.014
			999/2	0.038
			1002	0.051
			1033	0.019
			1039/2	0.024
			1040	0.017
			1041	0.040
			637/2	0.042
			697	0.042
			1427	0.029
			1442	0.012
			1443	0.022
			1444	0.046
			1447	0.066
			1448/2	0.005
			1457	0.032
			1473	0.016
			1458	0.016
			1459/1	0.016
			1459/2	0.020
			1459/3	0.019
			1460	0.008
			1474	0.042
			591/4	0.019
			630	0.014
			592	0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37,	631	0.018
			887	0.040
			892	0.008
			893	0.026
			896	0.022
			897	0.043
			906	0.109
			907	0.032
			908	0.018
			909	0.027
			1048	0.019
			1049/1	0.027
			1049/2	0.018
			1049/3	0.013
			1055	0.024
			1056/1	0.019
			2364	0.016
			2377	0.056
			2378	0.034
कुल योग			132	4.814

पत्र क्र.-2572-रीडर-1/2024

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0023/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-काल्दाखेड़ी, प. ह.नं.- 27, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.— 27,	380/2	0.018
			380/4	0.032
			433/3	0.005
			434/3	0.016
			435	0.016
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.— 27,	437/1	0.022
			437/2	0.020
			437/3	0.022
			437/4	0.010
			439/1	0.027
			439/2	0.032
			439/3	0.022
			440	0.040
			442	0.032
			444	0.014
			443	0.010
			445	0.020
			446	0.020
			447	0.024
कुल योग			19	0.402

पत्र क्र.-2566-रीडर-1-2024

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 0020/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26,	287	0.031
			291	0.065
			292	0.022
			363	0.041
				0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—झिरन्या, प.ह.नं.— 26,	365	0.019
				0.024
				0.016
			382/1	0.077
			383/2	0.064
			410	0.067
			451/1	0.022
			558	0.108
				0.029
			498	0.041
			501	0.024
				0.040
				0.038
			355	0.035
			360	0.034
			516	0.046
			517	0.039
			519	0.038
			550	0.029
			520	0.015
			521	0.015
			522	0.036
			532	0.007
			534	0.029
			535	0.051
			537	0.039
			538	0.012
			539	0.019
			540	0.039
				0.021
				0.021
			551	0.048
				0.010
				0.010
			552	0.043
				0.021
			358	0.014
			364	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26	560	0.035
			564	0.003
			565	0.061
			570/1	0.034
			570/2	0.010
			571	0.024
			450/3	0.035
			451/2	0.022
			459	0.003
			502	0.020
				0.018
			503	0.035
				0.050
			512/2	0.034
				0.034
			512/3	0.038
			514	0.016
			341	0.032
				0.080
			344	0.024
			345	0.050
			346/1	0.042
			346/2	0.021
			346/3	0.037
			349	0.013
			400	0.042
			307/1	0.018
			304	0.064
			317	0.032
			318	0.024
			319/1	0.010
			319/2	0.011
			343	0.008
			444/7	0.016
			447	0.002
			448	0.045
			449/2	0.002
			461/2	0.056
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-झिरन्या, प.ह.नं.- 26	463	0.066
			470	0.005
			488	0.026
			471	0.038
			486	0.008
			487	0.030
			508	0.024
			509	0.038
कुल योग			74	2.781

पत्र क्र.-2568-रीडर-1-2024

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 0021/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम-बिलनखेड़ा, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-बिलनखेड़ा, प.ह.नं.- 26,	77/1	0.036
			77/2	0.048
			88	0.038
			89	0.036
			90	0.048

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—बिलनखेड़ा, प.ह.नं.— 26,	92	0.010
			98	0.022
			99	0.105
			197/1	0.048
			199/1	0.012
			200	0.027
			221/1	0.012
			221/4	0.074
			265/1	0.022
			266/2	0.048
			274	0.048
			541/2	0.046
			541/1	0.048
			460	0.026
			525/2	0.103
			536/2	0.050
			537/2	0.074
			539/1	0.074
			537/3	0.067
			539/2	0.012
			521	0.024
कुल योग			26	1.158

पत्र क्रमांक-2574-रीडर-1-2024

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 0024/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम-खजूरी, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-खजूरी, प.ह.नं.- 26,	4/3	0.002
			4/4	0.018
			4/5	0.016
			4/6	0.021
			9/5	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-खजूरी, प.ह.नं.- 26,	40/1	0.014
			41	0.018
			9/2	0.036
			9/6	0.014
			40/2	0.024
			51	0.019
			57	0.020
				0.042
			58	0.024
			53	0.003
			56/1	0.054
			193/3	0.017
			193/4	0.024
			200/1/1	0.013
			200/1/2	0.038
			202	0.012
			204	0.009
			205	0.021
			210	0.021
			209	0.037
कुल योग			24	0.539

पत्र क्र.-2576-रीडर-1-2024

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 0019/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25,	235/1	0.018
			235/2	0.022
			235/3	0.036
			310	0.046
			311	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25,	312	0.112
			313	0.059
			1088	0.131
			1134	0.053
			314/2	0.054
			315	0.077
			317	0.041
			318	0.041
			322/5	0.132
			322/3	0.036
			322/4	0.036
			1082/13	0.038
			1082/14	0.029
			1087	0.009
			183/1	0.014
			1060	0.017
			183/2	0.016
			184	0.053
			185	0.003
			186/2	0.006
			187/1	0.036
			188	0.034
			191/3	0.036
			1070	0.022
			192/1	0.030
			193/2	0.026
			194	0.024
			197	0.027
			196	0.030
			198	0.046
			204/1	0.024
			204/2/1/1	0.010
			206	0.020
			970/1	0.018
				0.011
			970/2	0.014
			971/1	0.023
			974	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल, प.ह.नं.— 25,	976	0.015
			1045/1/1	0.018
			1045/1/2	0.029
			1045/2	0.003
			1045/3	0.003
			1045/4	0.003
			1052/1	0.006
			1052/2	0.006
			1053	0.012
			1050	0.031
			1054	0.019
			1057	0.008
			1059	0.008
			1107	0.018
			1067/1	0.010
			1067/2	0.017
			1068/1	0.009
			1068/2	0.009
			1068/3	0.009
			1069	0.016
			1071	0.038
			1079/2	0.016
			1080	0.006
			1092	0.012
			1093	0.012
			1094/1	0.025
			1095/3	0.014
			1096	0.012
			1097	0.022
			1099	0.021
			1103/1	0.006
			1103/2	0.014
			1104/1/1	0.003
			1104/1/2	0.003
			1104/2	0.005
			1104/3	0.006
			1108	0.011
			490/1	0.016
			492/1	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—छिरवेल, प.ह.नं.— 25,	492/2	0.021
			492/3	0.008
			492/4	0.010
			493/1	0.037
			493/2	0.022
			605/2	0.021
				0.027
			605/3	0.010
			567/1	0.016
			605/4	0.016
			568	0.026
			605/1	0.027
			607	0.101
			628	0.131
			631	0.026
			633/1/1	0.016
			633/2	0.070
			648	0.127
			649	0.058
			683	0.005
			693/1/1	0.006
			693/1/2	0.048
				0.026
			693/2	0.006
			823	0.046
			825/1	0.003
			825/2	0.008
			833/2	0.074
			834/1	0.070
			834/2	0.027
			834/3	0.027
			834/5	0.020
			843/2	0.026
			941	0.040
			943	0.030
			946	0.059
			840	0.011
			841	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25,	839	0.018
			497/1	0.010
			696/1	0.014
			696/2/1	0.013
			696/2/2	0.014
			698	0.016
			699/2	0.006
			699/1	0.006
			707/3	0.012
			707/1	0.026
			707/4	0.013
			707/5	0.014
			707/2	0.025
			706	0.034
			569/2	0.056
			579	0.059
			590	0.030
			596	0.018
			595	0.038
			598	0.029
			604/1	0.030
			952/2	0.085
			953/1/2	0.070
			968	0.029
कुल योग			141	4.083

पत्र क्र.-2578-रीडर-1-2024

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

क्रमांक- 0022/ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम-देशगांव, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम-देशगांव, प.ह.नं.- 23,	1197	0.038
			1208/1	0.032
			1246	0.002
			1213/2	0.056
			1213/1/2	0.053

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम—देशगांव, प.ह.नं.— 23,	1213/1/3	0.011
			1265/1	0.032
			1266/1/1	0.026
			1268/1	0.014
			1268/2	0.058
			1269	0.035
			1272/1	0.005
			1274	0.024
			1275	0.021
			1276/1/1	0.013
			1276/2	0.008
			1276/3	0.012
			1276/4	0.004
			1277	0.026
			1281	0.032
			1132/2	0.032
			1152	0.008
			1184	0.021
			1185/2	0.034
			1185/1	0.021
कुल योग			25	0.668

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-663-भू-अर्जन-2024

पन्ना, दिनांक 2 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक 21/अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना
(ख) तहसील — देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम — इटवां महंगू
(घ) क्षेत्रफल — 0.2100 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	128/1	0.0400	निजी भूमि
2	130	0.1100	निजी भूमि
3	128/2	0.0250	निजी भूमि
4	129	0.0350	निजी भूमि
	योग	0.2100	

- [2] इटवां महंगू से गोल्ही मुडिया मार्ग लंबाई 2.50 कि०मी० के निर्माण हेतु भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम इटवां महंगू तह० देवेन्द्रनगर अनु० पन्ना जिला पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-1873-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 14 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - कैथा

(घ) क्षेत्रफल- 3.7140 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	334	0.1420
2	335	0.0080
3	326	0.1550
4	325	0.0020
5	323/2	0.0290
6	302/1/1	0.0130
7	302/1/2	0.0780
8	302/1/3	0.0750
9	302/1/4	0.0760
10	303/1/2	0.1570
11	304	0.0880
12	305	0.1030
13	306	0.0930
14	161/1/1	0.0170
15	161/1/2	0.0170
16	163	0.0390
17	164/2	0.0480
18	165	0.0450
19	166	0.0180
20	257	0.0510
21	256/1	0.0250
22	256/2	0.0230

23	170	0.0350
24	171	0.0320
25	172	0.0170
26	173	0.0160
27	174	0.0330
28	204	0.0430
29	205	0.0220
30	206	0.0450
31	255	0.0280
32	254	0.0320
33	253	0.0200
34	252	0.0140
35	207/1	0.0310
36	207/2	0.0340
37	207/3	0.0390
38	208	0.0270
39	198/1/2	0.1700
40	198/2/3	0.1090
41	86/1	0.1230
42	86/2	0.0700
43	87	0.0310
44	78/1	0.0310
45	109	0.0340
46	89	0.0770
47	90/1	0.0540
48	90/2	0.0550
49	91	0.0200
50	76/1	0.1580
51	74/3	0.0310
52	74/4	0.0310
53	75	0.0890
54	55/2	0.1530
55	56	0.0740
56	57/1/1/1	0.0930

प्रयोजन-सतना नहर		
57	57/1/1/2	0.0230
58	57/1/2	0.0440
59	57/2/1	0.0380
60	211	0.0060
61	328/1	0.1150
62	328/2	
63	329/1/1	0.0050
64	329/2	0.1000
65	330/1	0.0120
66	330/2	
67	331/1	0.0670
68	331/2	
69	337/2	0.0130
70	336/2	0.0450
71	336/1/1	0.0730
कुल योग रकबा हे.में-		3.7140

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-1874-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पौड़ी गरादा

(घ) क्षेत्रफल- 8.8440 हे०

क्र०	खसरा नं.	अर्जित रकवा हे.में
(1)	(2)	(3)
1	215/6	0.3860
2	214/6	0.0110
3	213/2/4	0.0620
4	213/2/5	0.0940
5	210/1/1	0.1180
6	210/1/2	0.0820
7	210/2/2	0.0420
8	209/1/2	0.0100
9	207	0.1380
10	200/2	0.1080
11	200/3	0.1080
12	199/2	0.0100
13	198/3	0.2630
14	197/3	0.0160
15	242	0.0940
16	240/2	0.0140
17	241/1	0.1080
18	241/2	0.1080
19	239	0.3480
20	238	0.0140
21	237	0.2210
22	236	0.0140
23	456/1	0.0520

ग्राम-पौडी गराबा तहसील उंचेहरा		
24	456/2	0.0310
25	456/3	0.0080
26	455	0.1150
27	454	0.0410
28	434/1	0.0490
29	434/2	0.0330
30	433/1	0.0430
31	433/2	0.0180
32	430	0.0630
33	426	0.0730
34	423	0.0310
35	425	0.0180
36	429	0.0210
37	428	0.0220
38	499	0.0160
39	493	0.0450
40	498	0.0940
41	497	0.0160
42	522	0.0240
43	523	0.0490
44	524	0.0020
45	494/1	0.0100
46	1	0.2730
47	4	0.0180
48	5/1/1	0.2970
49	5/1/2	0.2960
50	7/1/3	0.0180
51	33	0.3340
52	34	0.0170
53	35/1	0.0450
54	35/2	0.0450
55	56/1	0.0150
56	56/2	0.0500
57	56/3	0.0590
58	56/4	0.0590

ग्राम-पौडी गरादा तहसील उंचेहरा		
59	56/5	0.0500
60	56/6	0.0500
61	59/1/1	0.0300
62	59/1/2	0.0300
63	59/1/3	0.0300
64	59/1/4	0.0150
65	59/2	0.1090
66	58/2	0.0140
67	64/1	0.2250
68	63	0.0120
69	67/1	0.2790
70	68/1	0.0090
71	68/2	0.0020
72	891/2/1	0.0100
73	892/1	0.0590
74	892/2	0.0590
75	892/3	0.0590
76	893/1/1	0.0670
77	898/1	0.0360
78	898/2	0.0360
79	899	0.0370
80	900/1	0.0710
81	31	0.2680
82	32/2	0.0180
83	38	0.0920
84	57/1	0.0150
85	530	0.0150
86	528/1	0.0700
87	611	0.0050
88	608	0.0420
89	610	0.0570
90	613	0.0420
91	615/1	0.0100
92	616/1	0.0150
93	616/2	0.0360

94	619/1	0.0160
95	619/2	0.0670
96	708	0.0520
97	706	0.0420
98	618	0.0080
99	626	0.0880
100	642/1	0.0060
101	642/2	0.0210
102	648	0.0520
103	649/2	0.0500
104	651	0.0420
105	652	0.0150
106	647/1	0.0070
107	646	0.1200
108	645	0.0740
109	989/4	0.3450
110	627/2/1/2	0.0420
111	901/1	0.1180
112	903/1/1	0.1850
113	903/1/2	
114	903/3/1	
115	903/3/2	
116	903/6	
117	926	0.0980
118	925/2	0.0420
119	928/1/1	0.0800
120	929	0.0700
121	930/1	0.0600
122	918/1	0.1250
123	918/2/1	0.0250
124	918/2/2	0.0250
125	918/2/3	0.0250
126	918/2/4	0.0250
127	918/2/5	0.0250
128	917/2	0.0050
129	916/1	0.0380
130	936/3	0.0750
131	936/4	0.0080
132	934/1	0.0310
133	934/2	0.0040
कुल योग रकबा हे.में-		8.8440

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की पोंडी गरादा माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-3512-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्रं.003-14-अ-82-2024-25

नरसिंहपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024

प्रारूप-V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम खैरी प0ह0नं0- 03 नं0बं0- 10 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में कुल 1.495 हे0 भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन भू-खण्ड हैं, जो 1.495 हे0 हैं ग्राम खैरी तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-
ग्राम खैरी प0ह0नं0- 03 नं0बं0-10 तहसील.गोटेगांव

स0क्रं0	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	उपेन्द्र कुमार वल्लभ शारदा प्रसाद पाण्डे सा0देह	भूमिस्वामी	1(S)	0.020
2	नीलाग्र बिष्णुप्रसाद पिता रेवा प्रसाद बाबूलाल छोटेला पिता धरनीधर कृष्णकुमार ना0बा0 वल्लभ नारायण बली मां खुर्द मनोरमा बाई वेवा नारायण प्रसाद प्रेमनारायण वल्लभ लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण सा0देह		2(S)	0.250
3	भातवरसिंह वल्लभ दिमान सिंह लोधी सा0 झामर		7/1/1(S) 6/1(S)	0.093 0.126
4	सुबराज सिंह वल्लभ वीरन सिंह मोहन सिंह झामसिंह लक्ष्मण सिंह पिता बैनीसिंह लोधी सा0 झामर		7/1/2(S) 8/1/2 6/2(S)	0.199 0.146 0.020
5	नेतराम पिता लेखराम लोधी सा0 झामर		7/2(S)	0.277
6	कुसुम वेवा रमाशंकर, नीरज पिता रमाशंकर, उपेन्द्र कुमार प्रकाश कुमार पिता शारदा प्रसाद सुशीला बाई वेवा सुरेश कुमार दुर्गेश कुमार वल्लभ सुरेश कुमार पाण्डे जाति ब्राम्हण		5(S) 8/2(S)	0.089 0.146
7	कुसुम वेवा रमाशंकर, नीरज पिता रमाशंकर सा0देह		9/3(S)	0.178
8	उमा पति स्व0 प्रकाश कुमार पाण्डे जाति ब्राम्हण सा0देह		21/2(S) 22/1	0.050
9	अमित कुमार वल्लभ प्रकाश कुमार पाण्डे सा0 देह		21/4(S) 22/6	0.047
योग				1.495

- उपरोक्त सूची में स0क्रं0- 05 के हितग्राही का नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0016/अ-27/वर्ष 2023-24 आदेश दिनांक 21/12/2023 के अनुसार संशोधित किया गया है।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जाँच करने के पश्चात की गई है।
- कार्यपालन यंत्री रा0अ0बा0लो0सा0 नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है। अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लैट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है। की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-3514-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.04-अ-82-2024-25

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिये धारा 11)

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : करेलीखुर्द |
| 4. प.ह.न. | : 30 |
| 5. नं.बं. | : 52 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 2.369 हे. |

अनुसूची 2

स.क	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हे० में
1	भगवान दास वल्द लिख्खू ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	3/1(S)	0.008
			32/1(S)	0.060
			33/1(S)	
2	नौकीवाई वेवा हेतराम रामदीन संतोष तुलसी रामस्वरूप संतोबाई पिता हेतराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	4/1(S)	0.040
			38/3(S)	0.040
3	रत्तोबाई पति धन्नी वर्मन सा.देह	भूमि स्वामी	4/2(S)	0.004
4	धनीराम पूरन भुगोबाई शंकरबाई इमरतीबाई पिता फुल्लू नोनीबाई वेवा हेतराम रामदीन संतोष तुलसी रामस्वरूप संतोबाई पिता हेतराम ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	4/3(S)	0.004
			6/1(S)	
			38/2(S)	0.202
5	कृष्णाबाई पति रविकांत पटेल सा. करेलीकलां	भूमि स्वामी	31/1(S)	0.101
6	कुसुमबाई वल्द गनपत ढीमर सा. देह	भूमि स्वामी	32/2(S)	0.080
			33/2(S)	
7	डब्बू वल्द लिखई ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	35/1(S)	0.098
8	दौलत वल्द लिखई ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	37/2(S)	0.082
9	सीताराम परमलाल पिता पोसाराम कल्लूबाई वेवा पोसाराम नि.ग्रा. ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	38/1(S)	0.150
10	पूरनलाल पिता फुल्लू ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	38/4(S)	0.032
11	सेतानसिंह पिता मिठाईलाल ढीमर सा झांसीघाट	भूमि स्वामी	43/2(S)	0.012
			46/2	
			47/2	
12	धर्मदास वल्द रल्ली मेहरा सा.देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	44(S)	0.202
13	दशरथ पिता चेताराम ढीमर नि. ग्राम	भूमि स्वामी	57/2(S)	0.300
			57/3	
			57/4	
14	प्रकाश पिता चेताराम ढीमर नि.ग्राम सा.देह	भूमि स्वामी	57/1(S)	0.080
15	यशवंत वल्द मुन्नासिंह लोधी सा. करेलीकलां	भूमि स्वामी	58/1(S)	0.064

स.क्र	भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकवा हे० में
16	जागेश्वर प्रसाद बल्द अनंदीलाल लोधी सा. करेलीकलां	भूमि स्वामी	58/2(S)	0.101
17	ख्यालसिंह बल्द अनंदीलाल लोधी करेलीकलां	भूमि स्वामी	59(S)	0.024
			62(S)	0.240
18	परसराम उर्फ चोखेलाल बल्द रामचरण लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	64(S)	0.445
कुल योग				2.369

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित, एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सहभूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह-भूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-3516-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.05-अ-82-2024-25

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिये धारा 11)

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : गंगईखुर्द |
| 4. प.ह.न. | : 30 |
| 5. नं.बं. | : 116 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 0.862 हे. |

अनूसूची 2

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	वसोरी वल्द गोरेलाल राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	15(S)	0.010
2	हेमराज वल्द बेनीसिंह राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	2/1(S)	0.152
3	भुवानी वल्द वेनीसिंह राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	2/2(S)	0.088
		भूमि स्वामी	3(S)	0.032
4	बुन्देलसिंह वल्द भोपतसिंह राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	5/1(S)	0.012
5	मचलाबाई मीराबाई वेवा भोपतसिंह राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	6(S)	0.037
6	विजयसिंह वल्द भोजराज सिंह गौड़ सा. जबलपुर	भूमि स्वामी	9(S)	0.020
7	हीरासिंह पिता डेलनसिंह राजगौड़ राजकुमार पिता डेलनसिंह राजगौड़ सा. गंगईखुर्द कोमलसिंह पिता शोभासिंह गौड़ मुकेश सिंह पिता शोभासिंह गौड़ शिवरानी बेबा शोभासिंह गौड़ बम्होरी तेंदूखेड़ा जिला दमोह	भूमि स्वामी	38(S)	0.014
8	लक्ष्मन वल्द बिहारी जुग्गा वल्द शंकर राजगौड़	भूमि स्वामी	40(S)	0.150
9	धर्मदास वल्द रल्ली मेहरा सा. करेली सेवा खातेदार ग्राम नौकर	भूमि स्वामी	41(S)	0.052
10	श्रीराम उर्फ टेकसिंह पिता हेमराज उर्फ खेमराज राजगौड़	भूमि स्वामी	42(S)	0.100
11	बुध्दीबाई वल्द कम्मू ढीमर	भूमि स्वामी	43(S)	0.147
12	गोधन वल्द मानसिंह राजगौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	45/2(S)	0.048
कुल योग				0.862

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन अं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सहभूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह-भूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-948-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.002-14-अ-82-2024-25

प्रारूप-V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-रमपुरा प.ह.नं.-10/7 नं.ब.-494 तहसील-करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 25.098 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 25.098 हेक्टेयर है ग्राम रमपुरा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-रमपुरा, तहसील-करेली, प.ह.नं.-10/7

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बाबूलाल पिता देवीसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	85/2 (s) 86/2 (s)	0.105
2	प्रकाश वल्द मलखान सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	85/3 (s) 86/3 (s)	0.060
3	लक्ष्मण सिंह वल्द धर्मदास लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	88/1 (s) 88/2 (s)	0.466 0.395
4	दुल्लम आ. धर्मदास लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	90/1 (s)	0.032
5	नरहरि आ. सीताराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	91/1 (s)	0.160
6	कमलेश पिता परताप लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	95 (s)	0.121
7	सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीताबाई रामवती बाई पिता राजाराम गोमती बाई मोतीबाई पिता राजाराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	91/2 (s)	0.109
8	परताप आ. नाथूराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	94 (s) 116/3 (s) 117/3 (s) 118/3 (s) 119/3 (s)	0.290 0.913
9	हरप्रसाद पिता शिवचरण लोधी रमपुरा	भूमिस्वामी	98/1 (s)	0.437
10	शिवचरण पिता भोपत सिंह मालती बाई रेखारानी पिता शिवचरण सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमिस्वामी	98/2 (s)	0.008

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
11	पूना बाई पति गिरवर लोधी रामजी वंदना जिया बाई पिता गिरवर लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	100 (s)	0.274
12	देवराज आ. मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	101 (s)	0.291
			103/2 (s)	0.135
13	लालसाहब आ. मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	102 (s)	0.316
			103/3 (s)	0.135
14	दुल्लम वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	103/4 (s)	0.302
15	भागवती बाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	103/5 (s)	0.397
16	कलाबाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	103/6 (s)	0.130
17	गोविन्द वल्द मोहनसिंह राधाबाई पति कैलाश पिता मोहनसिंह लोधी सा.करेली	भूमिस्वामी	112/2 (s)	0.163
18	बादशाह भूरे सियाबाई पिता हनुमत सिंह झूना बाई वेवा चतुर्भुज कृष्णाबाई पति प्यारेलाल अनंत पिता प्यारेलाल लोधी सा. करेली	भूमिस्वामी	111/2 (s)	0.917
19	राजेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	109 (s) 110 (s) 111/1 (s)	1.610
20	हाकमसिंह वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमिस्वामी	105/1 (s) 106/1 (s) 105/4 (s) 106/5 (s) 105/6 (s) 106/7 (s)	0.081 1.012 0.081
21	गयाप्रसाद मुन्नालाल दशरथ पिता रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमिस्वामी	105/2 (s)	0.405
22	तारापत आ. शोभाराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	105/3 (s) 106/3 (s)	0.749
23	दशरथ आ. रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	105/5 (s) 106/6 (s)	0.081
24	गंगाराम आ. रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	105/7 (s) 106/8 (s)	0.081
25	नहेलाल आ. रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमिस्वामी	105/8 (s) 106/9 (s)	0.081

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
26	रमेश आ. रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	105/9 (s) 106/10 (s) 108/3 (s)	0.081 0.443
27	गयाप्रसाद हाकम दशरथ नन्हेलाल गंगाराम रमेश जीजीबाई हल्कीबाई रामकुमारी पिता रामकिशन मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन ना.बा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेताराम प्रदीप ना.बा. वल्द सुखलाल बली मां मायाबाई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	106/2 (s)	0.565
28	सुककीबाई आ. शोभाराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	106/4 (s)	0.748
29	मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन ना.बा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेताराम प्रदीप ना.बा. वल्द सुखलाल बली मां मायाबाई रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला	भूमिस्वामी	107 (s) 108/1 (s)	0.573
30	राकेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	108/2 (s)	0.567
31	प्रहलाद आ. नारायण सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	112/1 (s)	0.040
32	लेखराम वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	112/3 (s)	0.016
33	शारदाबाई पति सरदार सिंह पिता यशवंत लोधी सा. करेली	भूमिस्वामी	115 (s) 116/4 (s)	0.101
34	दशरथ वल्द नाथूराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	116/1 (s) 117/1 (s) 118/1 (s) 119/1 (s)	0.295
35	पुहुपसिंह वल्द नाथूराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	116/2 (s) 117/2 (s) 118/2 (s) 119/2 (s)	0.190
36	नरबदी वल्द नाथूराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	116/5/1 (s)	0.023
37	विवेक कुमार लोधी ना.बा. पिता सरदार लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	116/5/1/2 (s)	0.084
38	कमलेश पिता परताप लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	116/5/2 (s)	0.083
39	मानसिंह वल्द मोहनलाल लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	130/3 (s)	0.080
40	धनीराम वल्द अनुरुध लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	120/1 (s)	0.048
41	भगवानसिंह वल्द धनीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	120/2 (s)	0.398
42	परषोत्तम वल्द धनीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	120/3 (s)	0.061
43	श्रीनर्मदा जी सर. अनुरुधसिंह वल्द हल्कू लोधी सा.देह एवं कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	120/4 (s)	0.169

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
44	रामसिंह आ. भानसिंह नन्हेलाल आ. बनवारीलाल लोधी सा. रमपुरा	भूमिस्वामी	120/5 (s)	0.061
45	ईश्वरसिंह पिता गम्मत सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/1/1 (s)	0.154
46	बतीबाई वेवा गालबसिंह विनोद यशवंत मीना बाई पिता गालबसिंह लोधी पता रमपुरा	भूमिस्वामी	121/1/1/2 (s)	0.154
47	विजयसिंह कल्याण नरहरि अजय भगवान दशोदा पिता सीताराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/2 (s)	0.307
48	सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीता रामवती बाई पिता राजाराम गनेशी बाई बेवा करनसिंह गोमतीबाई मोतीबाई पिता करनसिंह जाति लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/1 (s)	0.153
49	कोमल बाबूलाल सूरज होरीलाल पिता देवीसिंह सुकरतीबाई रामप्यारी बाई सुन्दरबाई पिता धीरज बलवंत टीकाराम मुन्नीबाई नन्हीबाई पिता कन्हैयालाल लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/2 (s)	0.077
50	कुंतीबाई बेवा मलखानसिंह देवकाबाई प्रकाश रेखाबाई उर्फ पुट्टीबाई पिता मलखान लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/3 (s)	0.077
51	चौहानसिंह राजू लीला प्रभाबाई सुक्कीबाई बुद्धिबाई पिता दीवान सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/4 (s)	0.077
52	कड़ोरीलाल दुल्लम ज्ञानी थानसिंह लक्ष्मण दीपाबाई पिता धरमदास रामाबाई बेवा प्रीतम सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/5 (s)	0.077
53	उजयार सिंह डालचंद्र पोहप भोपत जगदीश लक्ष्मीबाई मोतीबाई दुर्गाबाई मोहिनीबाई पिता मोहकम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	121/1/3/6 (s)	0.154
54	कोमलसिंह पिता जीवनलाल ढीमर सा. करेली	भूमिस्वामी	121/2 (s) 122/1 (s)	0.890
55	छोटेलाल आ. जीवनलाल ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	121/3 (s) 122/2 (s)	0.890
56	छोटी बाई जोजे हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	124/1 (s) 124/2 (s)	0.069
57	नेमीचंद आ. हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	123 (s)	0.004
58	वनवारी भानसिंह पिता दीनानाथ लोधी सा. देह	भूमिस्वामी	187/3 (s)	0.073

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
59	रामेश्वर पिता श्रीरामलाल नौरिया सा. टुईयापानी	भूमिस्वामी	188 (s)	0.332
60	प्रहलाद वल्द कमोद सिंह वीरन शक्कर बाई पिता बुध्दा ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	189 (s)	0.558
61	महेन्द्रसिंह पिता गजराज सिंह लोधी सा. केरपानी	भूमिस्वामी	190 (s)	0.647
62	दरयाव सिंह आ. हरिसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	191 (s)	0.145
63	मुकेश कुमार वल्द माखनसिंह लोधी सा. केरपानी	भूमिस्वामी	204 (s) 205/2 (s)	1.068
64	जानकीबाई वेवा लालसाहब रामजी कलाबाई ऊषाबाई उर्मिला पिता लालसाहब देवेन्द्र सुरजीत खीरसिंह शांतिबाई जीजीबाई पिता दुल्लमसिंह गौराबाई वेवा अनंतसिंह राजकुमार रामकुमार ऊमाबाई पिस. अनंतसिंह सकुनबाई वल्द रघुराज हाकमसिंह नन्हीबाई पिस. पोघानसिंह गुलाब प्रभुनारायण पिता राजा भैया राव श्रीराम राव प्रकाश राव त्रिलोक राव मदन राव प्रीतमसिंह सियाबाई पिता घनश्याम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	205/1 (s) 206 (s)	0.947
65	हरप्रसाद आ. मोहनलाल लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	203 (s)	0.271
66	भोजराज वल्द केवलराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	202 (s)	0.186
		भूमिस्वामी	199/1 (s)	0.282
67	दयालसिंह वल्द केवलराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	195/1 (s)	0.040
68	कन्हैयालाल वल्द नब्बेलोधी सा.देह	भूमिस्वामी	200/1 (s)	0.502
69	चूरामन वल्द देयराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	200/2 (s) 201 (s)	0.316
70	ईश्वरसिंह वल्द रघुनाथ सिंह हज्जू वल्द मोतीलोधी सा.देह	भूमिस्वामी	198/1 (s)	0.040
71	राजाराम आ. छत्तरसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	198/2 (s) 198/3-4 (s)	0.392 0.324
72	महेन्द्रसिंह वल्द देवीसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	199/2 (s)	0.386
73	रोशन आ. केवलराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	199/3 (s)	0.539
74	रन्वोबाई वल्द पूरन लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	197 (s)	0.004
कुल योग				25.098

1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-1 के हितग्राहियों के नाम तहसीलदार के प्र.क्र. 0010/अ-27/2022-23 आदेश दिनांक 13.04.2022, सूची के सरल क्रमांक-5 हितग्राहियों के नाम न्याया. नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0290/अ-6/2023-24 आदेश दिनांक 17.01.2024, सूची के सरल क्रमांक-36 में न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0025/ब-12/24-25 आदेश दिनांक 24.06.2024 अनुसार भू-अभिलेख तथा न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0028/अ-27/22-23 आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं सूची के सरल क्रमांक-61 न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0275/अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार भू-अभिलेख के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
4. चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-950-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.0016-अ-82-2024-25

प्रारूप-V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-गोकला प.ह.नं.-13/7 नं.ब.-147 तहसील-करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 30.745 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 30.745 हेक्टेयर है ग्राम गोकला तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-गोकला प.ह.नं.-13/7 नं.ब.-147 तहसील-करेली

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	10 (S)	0.138'
			12 (S)	0.073
			65/2 (S)	0.024
			66 (S)	0.040
2	भगवान सिंह पिता बहादुर सिंह लोधी नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	6/1 (S)	0.405
			17 (S)	1.820
			65/1 (S)	0.364
3	रूपसिंह वल्द रमेश सिंह लोधी सा. गुरसी	भूमिस्वामी	6/10 (S)	0.210
			14/2 (S)	2.630
			14/3 (S)	
			15, 16 (S)	
4	कृष्ण कुमार वल्द भगवानसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	6/11 (S)	0.435
5	चौहानसिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	6/5 (S)	0.689
6	लक्ष्मण सिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	6/6 (S)	0.226
7	गजराजसिंह वल्द भैयालाल ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	13/1 (S)	0.585
			13/3 (S)	0.240
8	चंदाबाई जोजे गजराज सिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	13/2 (S)	0.405
9	भीष्मसिंह आत्मज कमलसिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	14/1 (S)	0.060
10	बड़ुडीबाई वेवा जानकीप्रसाद शिवलाल संतोष नन्हेलाल कुंताबाई वालिक संजय गुलजार जीराबाई ना.बा. पिता स्व. जानकी प्रसाद बली मां बड़ीबाई धानक सा.देह	भूमिस्वामी	75/3 (S)	0.016
11	गुलाबसिंह वल्द अमरसिंह मुलिया वल्द धीरा ग्यारसीबाई सत्तोबाई केशरबाई पिता मोहन धानक सा.देह	भूमिस्वामी	34/1 (S)	0.100

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	हल्कीबाई पत्नि मिट्ठू धानक सा.देह	भूमिस्वामी	34/2 (S)	0.024
13	नन्दूप्रसाद वल्द मोहन धानक सा.देह	भूमिस्वामी	34/3 (S)	0.016
14	श्री देव गौकर्णनाथ जी सर, बहादुरसिंह वल्द जवाहर सिंह लोधी सा.देह संरक्षक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	35 (S)	0.280
			18 (S)	0.024
15	सेवक पिता कढोरी धानक सा. करेली	भूमिस्वामी	53 (S)	0.040
16	गोकल पिता कढोरी धानक	भूमिस्वामी	72/4 (S)	0.060
			73/1/अ (S)	
17	हरीराम रेवती बाई नन्हेबाई विक्कोबाई विमलाबाई पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा.नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	54 (S)	0.040
18	हरीराम रेवती बाई नन्हीबाई विक्कोबाई विमलाबाई पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा. नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	55/2 (S)	0.018
19	विष्णुप्रसाद वल्द बाबूलाल धानक सा. करेली	भूमिस्वामी	55/1 (S)	0.111
20	भूरीबाई वेवा टावलसिंह घनश्याम पुत्र टावलसिंह महेश गोधन सोमनाथ पिता टावलसिंह हरिबाई पुत्री टावलसिंह	भूमिस्वामी	52/1 (S)	0.060
			68/1 (S)	
			73/1/2 (S)	0.072
21	शोभाराम आ. देवीसिंह धानक सा.देह	भूमिस्वामी	52/2 (S)	0.060
			68/2 (S)	
22	रामकुवर बाई जोजे तुलसीराम लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	69 (S)	0.178
			51 (S)	0.032
			94/2 (S)	0.952
23	छोटेलाल वल्द देवीसिंह धानक सा.देह	भूमिस्वामी	70 (S)	0.154
24	तेजबल उर्फ हल्कोरी आ. नन्हा धानक सा.देह	भूमिस्वामी	72/1 (S)	0.068
			72/3 (S)	0.024
			73/1/घ (S)	
25	रामदयाल वल्द गनपा धानक सा.देह	भूमिस्वामी	73/1/अ (S)	0.016
26	लखन ना.वा. वल्द वली श्यामलाल धानक सा.देह	भूमिस्वामी	73/4 (S)	0.016
27	सरदार सिंह आ. गनपे धानक सा.देह	भूमिस्वामी	73/1/ब (S)	0.222
28	जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा. देह	भूमिस्वामी	79/1 (S)	0.048
			96/7 (S)	0.271
29	हरीराम पिता सोवरन सिंह ढीमर सा. करेली	भूमिस्वामी	79/2 (S)	0.288
30	नन्हेलाल आ. चेताराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	78/11 (S)	0.120
			78/14 (S)	
31	तेजबल आ. मुल्ले ढीमर नि. ग्राम	भूमिस्वामी	78/12 (S)	0.184
32	भूरा वल्द रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	78/7 (S)	0.060
			78/9 (S)	
			80/3 (S)	
33	नन्हेलाल वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	80/1 (S)	0.202
34	कलाबाई जोजे सीताराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	80/2 (S)	0.550
35	दशरथ वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	82/1 (S)	0.144

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
36	ज्ञानी वल्द बहादुर सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	93/1 (S)	0.809
			94/3 (S)	0.802
37	गिरवर सिंह वल्द बहादुर सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	93/2 (S)	1.348
38	रचनाबाई जोजे मस्तराम लोधी सा. रातीकरारकलां	भूमिस्वामी	94/1 (S)	0.809
39	परषोत्तम वल्द हल्के लोधी सा. रमपुरा	भूमिस्वामी	95 (S)	0.729
40	वीरन आ. सुखराम नोरिया सा.देह	भूमिस्वामी	96/1 (S)	1.339
			96/2 (S)	
41	मुल्ले वल्द लुट्टे ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	96/3 (S)	0.060
42	रक्खीबाई वेवा खुमान पूनाबाई बीरोबाई वा. राजेश राकेश दुर्गाबाई नीलू ना.बा. पिता खुमान वली मां रक्खीबाई ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	96/4 (S)	0.082
43	सोमनाथ वल्द मुल्ले ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	96/5 (S)	1.036
44	दशरथ वल्द सरदार सिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	96/6 (S)	0.465
			26/4 (S)	0.004
45	नर्बदी बाई पिता दलीपसिंह पति गिरवर सिंह लोधी सा. नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	97 (S)	1.060
			98 (S)	
46	गनेशीबाई पत्नि मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमिस्वामी	99/1 (S)	0.564
			100/1 (S)	
47	प्रेमसिंह वल्द मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा	भूमिस्वामी	99/2 (S)	0.565
			100/2 (S)	
48	ग्यारसी उर्फ गयाप्रसाद पिता रामकिसन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	92/1 (S)	0.160
49	राजेश कुमार वल्द गिरवर सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	92/2 (S)	1.354
50	महेश कुमार वल्द वरजोर सिंह लोधी सा.देह	भूमिस्वामी	92/3 (S)	0.405
51	गयाप्रसाद हाकमसिंह दशरथ नन्हेलाल गंगाराम रमेश रामुकवर बाई हल्कीबाई बड़ीबाई पिता रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	91/1 (S)	0.381
			91/3 (S)	0.382
			91/4 (S)	0.381
			26/10 (S)	0.336
52	हाकम सिंह पिता रामकिशन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	91/2 (S)	0.382
53	लालजू वल्द रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	85/1 (S)	0.082
			26/5 (S)	0.633
			26/9 (S)	0.056
54	सीताराम वल्द इमरत सिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	85/2 (S)	0.028
55	किशोरी वल्द मानक ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/2 (S)	0.040
56	पेशबाई वेवा रामसिंह लालजू पंचम साहब दयाशंकर भूरे कल्याण राजेन्द्र राजाराम गिरजा माया गुडडी रामबाई पिता रामसिंह ढीमर	भूमिस्वामी	26/8 (S)	0.068
57	हेमन्त सिंह आ. मेरसिंह नौरिया सा.देह	भूमिस्वामी	26/11 (S)	0.240
58	मेरसिंह वल्द चेताराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/7 (S)	0.032
			26/1 ग (S)	0.405
59	गेंदालाल आ. मानकलाल ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/6 (S)	0.348

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
60	किशोरीलाल कोमल गेंदालाल भगवानसिंह कलाबाई छोटीबाई पिता मानक ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/12 (S)	0.931
61	सेवकसिंह आ. सीताराम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/15 (S)	0.332
62	साहबसिंह आ. रामसिंह ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	26/13 (S)	0.931
63	लक्ष्मण सिंह वल्द टावलसिंह लोधी सा. समनापुर	भूमिस्वामी	88 (S)	0.372
			कुल योग	30.745

- उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-20 के हितग्राही का नाम न्यायालय नायाब तहसीलदार के प्र.क्र. 0297/अ-6/ 2022-23 आदेश दिनांक 06.10.2022 के अनुसार संशोधित किया गया है।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.-952-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र.-011-अ-82-2024-25

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-अमोदा प.ह.नं.-03 नं.ब.-10 तहसील-नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 9.168 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 9.168 हेक्टेयर है ग्राम अमोदा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-अमोदा, तहसील-नरसिंहपुर, प.ह.नं.-03

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
1	गोपाल रेवाराम झलकन देवीसिंह गेंदसिंह भूरीबाई गुड्डीबाई पिता डोरीलाल मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	35/1/9 (s)	0.048
2	टीकाराम मुन्नालाल खीरसागर हरप्रसाद देवीसिंह गायत्रीबाई वतीबाई पिता चूरामन मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	41 (s)	0.008
3	हल्कीबाई पत्नि जयराम तेजसिंह डालसिंह उर्फ जूजू गेंदालाल रमेश कन्हैयालाल गंगोबाई कल्लूबाई गुड्डी जमनाबाई पिता जयराम मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	42/1 (s) 44/1 (s) 45/1 (s)	0.372
4	रोशनलाल आ. लालसींग मलाह सा. देह	भूमिस्वामी	42/2 (s) 44/2 (s) 45/2 (s)	0.218
5	टीकाराम आ. लालसींग मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	42/3 (s) 44/3 (s) 45/3 (s)	0.100
6	विशाल हक्कीबाई रम्माबाई मुन्नीबाई सुशीलाबाई पिता रतन देवीसिंह प्रेमवती कुसुम दुर्गाबाई पिता सरदार मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	46/1 (s) 46/2 (s)	0.405 0.610
7	अमरसिंह वल्द कोदूलाल मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	55/1 (s)	0.390

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
8	अमरसिंह वीर बहादुर डालसिंह डिल्लो बाई भगगोबाई शकुनबाई पिता कोदूलाल धनोती बाई धर्मपत्नि स्व. नब्बू मोहन गोविन्द हरप्रसाद पिता नब्बू मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	55/2 (s) 56 (s)	0.095 0.320
9	डालसिंह कच्छेदी भग्गीबाई मोहन बाई हक्कीबाई रम्भाबाई पिता गुब्बे मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	83/2(s) 84 (s) 85/1 (s)	0.020 0.200 0.170
10	भीकम वल्द गुलाब सिंह मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	85/2 (s) 89 (s)	0.168 0.360
11	कच्छेदी डालसिंह पिता गुब्बे मलाह सा.देह	भूमिस्वामी	90 (s)	0.280
12	सीताराम पिता डब्बलसिंह मलाह सा. अमोदा	भूमिस्वामी	91 (s) 92 (s) 94/1 (s)	0.275 0.060 0.634
13	जीरालाल पिता कमल मलाह	भूमिस्वामी	95/1/1 (s) 95/3/1 (s)	0.009 0.164
14	शकुनबाई वेवा प्रीतम मुकेश पिता प्रीतम मलाह	भूमिस्वामी	95/1/2 (s) 95/3/2 (s)	0.018 0.161
15	सांस्कृतिक उत्थान समिति गोविन्दनाथ वन धूमगढ़ सांकल घाट द्वारा स्थाई अध्यक्ष व संस्थापक सुबुद्धानन्द ब्रम्हचारी शिष्य ब्रम्हलीन श्री शंकराचार्य जी महाराज पता प्लॉट नंबर सी 1127 प्लॉट नंबर 25 सरस्वती कुंज अपार्टमेंट पूर्वी दिल्ली हाल मुकाम परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था	भूमिस्वामी	95/1/3 (s) 95/3/3 (s)	0.010 0.161
16	बाबूलाल पिता कमल मलाह	भूमिस्वामी	95/1/4 (s) 95/3/4 (s)	0.010 0.161
17	डालसिंह पिता कमल मलाह	भूमिस्वामी	95/1/5 (s) 95/3/5 (s)	0.014 0.162
18	ललतीबाई पत्नि कोमल ठाकुर सिंह संतोष उत्तम गुलाब मुन्नीबाई कलाबाई पिता कोमल कैलाश दशोदाबाई सुषमाबाई गौराबाई रजनी ना.बा. पिता भागीरथ वली व खुद मां मंगोबाई पत्नि भागीरथ ठीमर	भूमिस्वामी	108/11(s)	0.245
19	हाकमसिंह वल्द डब्बलसिंह मलाह सा. देह	भूमिस्वामी	95/2 (s)	0.415

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा हे.
1	2	3	4	5
20	परमलाल दयाल वल्द जीवन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	108/1 (s)	0.245
21	श्री जगतगुरु शंकराचार्य सदाव्रत अन्य क्षेत्र गुरुगुफा गोविन्द नाथ वन संचालक श्री निजानन्द ब्रम्हचारी गुरु श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज गुरु गुफा धूमगढ़	भूमिस्वामी	108/2 (s) 108/10 (s)	0.340 0.275
22	हेमराज डबबूलाल केहरसिंह पिता हेमराज हिम्मत सिंह गुल्लीबाई धर्म पत्नि स्व. रेवाराम ढीमर सा. टोला नीमखेड़ा	भूमिस्वामी	108/3 (s)	0.250
23	गुड्डा सुम्मा पिता दुर्जन ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	108/4 (s) 103/2 (s) 105/1 (s)	0.050
24	तरवर वालाराम पिता शंकर लाल ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	108/5 (s)	0.045
25	गीताबाई सावित्रीबाई पिता जालमसिंह सुभाष शिवराज जमनाबाई मतिबाई लीलाबाई पिता वैनीसिंह लोधी नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	108/6 (s)	0.300
26	औकारसिंह गम्मतसिंह पिता गौरीशंकर लोधी सा.पिपरिया	भूमिस्वामी	108/8-9 (s)	0.120
27	कल्याण मुनीम हरिसिंह नीरज पिता भगुन्त मुन्नीबाई पत्नि मुलाम राजेन्द्र देवसिंह वीरन घनश्याम नेतराम जयंतीबाई पिता मुलाम ढीमर सा.देह	भूमिस्वामी	108/12 (s)	0.540
28	क्षामसिंह वल्द छिदामीलाल ढीमर सा. देह	भूमिस्वामी	108/13 (s) 103/4 (s) 105/3 (s)	0.051
29	मुन्नीबाई धर्मपत्नि स्व. गेदालाल नौरिया सा.देह	भूमिस्वामी	108/15 (s) 103/6 (s) 105/5 (s)	0.050
30	गीताबाई पत्नि होरीलाल पंचु छोटेलाल पिता होरीलाल ढीमर नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	108/17 (s) 103/8 (s) 105/7 (s) 108/18 (s) 103/9 (s) 105/8 (s)	0.051 0.023
31	अनीता पत्नि प्रहलाद अरविन्द नरबदी बाई जीजीबाई वत्तोबाई वंदना पिता प्रहलाद ढीमर	भूमिस्वामी	108/19 (s) 103/10 (s) 105/9 (s)	0.050

स. क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा है.
1	2	3	4	5
32	बुद्धीबाई धर्मपत्नि स्व. हीरालाल सोवरन सिंह वल्द हीरालाल ढीमर सा. देह	भूमिस्वामी	108/21 (s) 103/12 (s) 105/11 (s)	0.050
33	पूरनलाल वल्द सूरत सिंह ढीमर ग्राम अमोदा	भूमिस्वामी	108/23 (s)	0.125
34	सुन्दरलाल वल्द शोभाराम ढीमर सा. देह	भूमिस्वामी	108/24 (s)	0.190
35	गोविन्द प्रसाद प्रहलाद सुन्दरलाल श्यामाबाई पिता टीकाराम ढीमर अमोदा	भूमिस्वामी	108/25 (s)	0.150
कुल योग				9.168

- उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-1 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0622/अ-6/2023-24 आ.दि 06.02.24 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतन एवं सरल क्रमांक 15 के हितग्राहियों के नाम तहसीलदार के प्र.क्र. 0045/ब-121/2022-23 आ.दि 20.05.22 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

ई.क्र.-549-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.0004-अ-82-2024-25

मंदसौर, दिनांक 9 जुलाई 2024

(प्रारम्भिक सूचना)

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) (कमांक 30 सन 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहत सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिनियम 2013(कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :

अनुसूची (1)

ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में :

स.क्र.	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम टकरावद	0.874	—	0.874
	योग	0.874	—	0.874

अनुसूची (2)

उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि (हे.मे.)		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	तुलसीराम, दिनेश पिता भेरूलाल कुल्मी नि. ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	17/5	0.584	0.024	—	0.024
2.	बुतुबददीन पिता नूर मोहम्मद पिजारा निवासी ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	17/6	0.589	0.190	—	0.190
3.	कंवरलाल पिता रामचन्द्र नायक नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	20/11	0.073	0.005	—	0.005
4.	गुलाम हुसैन पिता जलालुद्दीन पिजारा नि. ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	626/1	0.211	0.090	—	0.009
5.	रजाक मोहम्मद पिता जलालुद्दीन पिजारा नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	626/2	0.210	0.017	—	0.017
6.	सहमीबाई बेवा भेरूलाल, तुलसीराम, दिनेश पिता भेरूलाल कुल्मी नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर	629/2	0.874	0.365	—	0.365
7.	शंकरलाल पिता बापुलाल कुल्मी नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ	630	1.720	0.187	—	0.187
	कुल योग	7	4.261	0.874	—	0.874

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

ई.क्र.-551-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.006-अ-82-2024-25

(प्रारम्भिक सूचना)

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) (कमांक 30 सन 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहत सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि निम्न कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम दोबडा तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में

स.क्र.	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम दोबडा	0.382	—	0.382
	योग	0.382	—	0.382

अनुसूची (2)

ग्राम दोबडा उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हे. में)	सिंचित (हे. में)	प्रभावित भूमि अंश (हे. में)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	जगदीश पिता गंगाराम नि.ग्राम अरनियाजटिया तह. मल्हारगढ	464 / 1	0.020	0.008	—	0.008
2.	बंसतीलाल, भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई बेवा गंगाराम, गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	464 / 2	0.040	0.008	—	0.008
	जगन्नाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	464 / 3	0.020	0.008	—	0.008
4.	प्रभुलाल पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	464 / 4	0.020	0.008	—	0.008
5.	धापुबाई पति देवीलाल गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया	466 / 1	0.620	0.027	—	0.027
6.	रामगोपाल पिता भागीरथ नि.ग्राम दोबडा	466 / 2	0.240	0.027	—	0.027
7.	दशरथलाल पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470 / 1	0.034	0.001	—	0.001
8.	मुकेश पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470 / 2	0.034	0.001	—	0.001
9.	सुरेशचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा	470 / 3	0.035	0.001	—	0.001
10.	जगदीश पिता गंगाराम नि.ग्राम अरनिया जटिया	473 / 2	0.380	0.036	—	0.036
11.	बंसतीलाल, भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई बेवा गंगाराम गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	473 / 3	0.380	0.021	—	0.021
12.	जगन्नाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	473 / 4	0.600	0.021	—	0.021
13.	मधुरीबाई बेवा अमृतराम, बंशीलाल, रमेशचन्द्र, कचरीबाई, जसोदाबाई पिता अमृतराम नि. अरनियाजटिया	468	0.190	0.010	—	0.010
14.	छेवीलाल पिता भुवान गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया	474	2.830	0.205	—	0.205
	कुल योग	किता 14	5.443	0.382	—	0.382

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

ई.क्र.-550-रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.005-अ-82-2024-25

(प्रारम्भिक सूचना)

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) (कमांक 30 सन 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं बृहत सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर				
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में				
स.क्रं	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
	ग्राम अरनिया जटिया	0.200	—	0.200
	योग	0.200	—	0.200

अनुसूची (2)

ग्राम अरनिया जटिया उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स.क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि का रकबा (हे.में)	प्रभावित भूमि		कुल
				सिंचित (हे.में)	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोपाल पिता देवीलाल जटिया निवासी ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ	205/5	0.50	0.04	—	0.04
2.	भगताराम पिता नन्दा, जगदीश पिता नाथु जाति जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया	205/6	0.22	0.02	—	0.02
	भेरूलाल पिता रामचन्द्र, हुलासबाई पति भेरूलाल, जटिया नि.अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ	205/7	0.25	0.02	—	0.02
4	दयाराम पिता रामचन्द्र, कुशलीबाई पति दयाराम जटिया नि.अरनिया जटिया	205/9	0.75	0.06	—	0.06
5	हीरालाल पिता किशनलाल, जशोदाबाई पति हीरालाल, जटिया नि.अरनिया जटिया	205/8	0.50	0.03	—	0.03
6	वरदीबाई बेवा रामचन्द्र, अमृतराम, दयाराम पिता रामचन्द्र जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जि.मन्दसौर	170	0.70	0.03	—	0.03
	कुल योग :-		2.92	0.20	—	0.20

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है।

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2024

क्र.-B-2888-दो-2-9-2023.- श्री अजय सिंह ठाकुर, Member Secretary (S. C. M. S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह ठाकुर, Member Secretary (S. C. M. S.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो Member Secretary (S. C. M. S.), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-2890-दो-2-16-2024.- सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-2892-दो-2-75-2018.- श्री बी. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 11 से 14 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-B-2894-दो-2-17-2016.- श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष 2019 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और

विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र.-B-2896-दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्र.-C-5131-दो-2-36-2022.- श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2024, के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.), के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-C-5133-चार-8-42-1977 भाग-सोलह.- सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 1 से 5 जुलाई 2024 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-C-5135-दो-2-14-2024.- श्री रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (D.E.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 05 से 09 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (D.E.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रितुराज सिंह चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (D.E.), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2024

क्र.-B-3245-दो-2-18-2024.- श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2024 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 से 20 जुलाई 2024 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र.-B-3247-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी को दिनांक 24 जुलाई 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-3251-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री मधुसूदन मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री मधुसूदन मिश्र की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2024 को उनके खाते में 199 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 254 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | |
|------|---------------------------|---------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज - | 199 दिवस |
| | में नगद भुगतान | |
| (ii) | अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - | 202/2 = 101 |
| | में नगद भुगतान | दिवस का पूर्ण |
| | | अवकाश वेतन. |

क्र.-B-3253-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री सुधीर सिंह चौहान, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,

जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री सुधीर सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 300 + 15 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 282 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-

- | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 300 दिवस |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 00/2 = 00 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

क्र.-C-5534-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री चन्द्रदेव शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री चन्द्रदेव शर्मा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को उनके खाते में 222 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 484 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|------|--|---|--------------------------------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 222 दिवस |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 156/2 = 78 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

क्र.-C-5534-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री चन्द्रदेव शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय छिन्दवाड़ा

को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4118, दिनांक 21 जून 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-5536-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4197, दिनांक 24 अगस्त 2022 निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-5538-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री विनोद कुमार की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को उनके खाते में 279 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 566 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 279 दिवस |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 42/2 = 21 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्र.-B-3262-दो-3-420-80-भाग-बारह.-श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की

जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 300+8 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 580 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :-

- | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 300 दिवस |
| (ii) | अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान | — | 00/2 = 00 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

क्र.-B-3264-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2024 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 24 जुलाई 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-3266-दो-2-73-2021.- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि में एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग किये जाने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्र.-A-5689-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय हरदा को दिनांक 25 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5691-दो-2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 16 जून 2024 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. दिनांक 17 से 22 जून 2024 तक, छः दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5693-दो-2-4-2016.- श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 10 से 15 जुलाई 2024 तक छः दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5695-दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 18 से 22 जुलाई

2024 तक पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-3391-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक- (i) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 268 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 426 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :-

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| (i) अर्जित अवकाश के एवज | — | 268 दिवस |
| में नगद भुगतान | | |
| (ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज | — | 64 / 2 = 32 |
| में नगद भुगतान | | दिवस का पूर्ण |
| | | अवकाश वेतन. |

क्र.-B-3397-दो-2-35-2023.- श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 18 से 20 जुलाई 2024 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 22 जुलाई 2024 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र.-B-3403-दो-2-73-2021.- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 24 अगस्त 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अगस्त 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-3406-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 22 से 24 जुलाई 2024 तक तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-3408-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्रीमती आशा गोष्ठा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन

(सिविल) क्र.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक— (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्रीमती आशा गोधा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को उनके खाते में 211 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 456 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	—	211 दिवस
(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	—	178/2= 89 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-B-3410-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्रीमती आशा गोधा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/4152, दिनांक 27 अगस्त 2021 निरस्त किया जाता है.

क्र.-B-3412-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री लखन लाल गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्र.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक— (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री लखन लाल गर्ग की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2023 को उनके खाते में 229 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 142 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान	—	229 दिवस
(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान	—	142/2= 71 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-B-3414-दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री लखन लाल गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/5847, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 निरस्त किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

आशीष तिवारी, डी. आर.-कम-पी.पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्र.-B-3481-एक-7-3-23-भाग-एक.- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-9416-एक-7-3-2023 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2023 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी/1526/एक-7-3/2023 भाग-1, जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं रजिस्ट्री तथा मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका हेतु मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2024 के स्थान पर सोमवार दिनांक 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त परिवर्तित अवकाश के एवज में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं रजिस्ट्री तथा मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका हेतु मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2024 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2024

क्र.-अवकाश-1246.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 जुलाई 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गयी है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.